

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2014 (आश्विन 12, 1936)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2014 (ASVINA 12, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

थल सेना शाखा

सं 221, दिनांक 15 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को 01 जुलाई 2014 (पूर्वाह्न) से अपने निजी अधिकारी (स्टाफ) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

अवैतनिक सर्जन के पद पर

(क) लेफ्टिनेंट जनरल बी के चोपड़ा, एवीएसएम, डीजीएचएस (एएफ) (एमआर—04133एन)

यश पांडे
मेजर जनरल
अपर महानिदेशक स.से.चि.से./मा.सं)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं 222, दिनांक 15 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :---

श्री सुरेश पालाकुर्थी को उप मुख्य संनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 20 अगस्त 2014 |पूर्वाहन| से पै बैंड 3 में रू० 15,600—39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू. 7,600/- पर ।

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

थल सेना विभाग,

सं 223, दिनांक 16 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :---
नियमित सेवा

अनु क्र.	सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर	पदोन्नति दिनांक
1.	सूबेदार मेजर बलराम श्रेष्ठा (JC – 826204L)	01 फरवरी 2014
2.	सूबेदार मेजर नरेश सिंह (JC – 826210Y)	01 मार्च 2014

अनु क्र.	सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर	पदोन्नति दिनांक
1.	सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (JC-826236N)	01 सितम्बर 2013
2.	सूबेदार जयप्रकाश व्ही. पी. (JC-826237W)	03 सितम्बर 2013 01 सितम्बर 2013*
3.	सूबेदार अर्जुन सिंह (JC-826239F)	01 नवम्बर 2013
4.	सूबेदार गंजारे विनोद माणिकराव (JC-826240W)	01 दिसम्बर 2013
5.	सूबेदार एम्पडा नागेश्वर राव (JC-826241Y)	03 दिसम्बर 2013 01 दिसम्बर 2013*
6.	सूबेदार रो'न लाल ठाकूर (JC-826242F)	01 फरवरी 2014
7.	सूबेदार चन्दर प्रकाश (JC-826244M)	01 मार्च 2014
8.	सूबेदार बी करुणाकरण (JC-826245P)	01 मार्च 2014
9.	सूबेदार अरुण कुमार (JC-826246X)	01 मई 2014
10.	सूबेदार दयाल सिंह (JC-826247A)	01 जून 2014
11.	सूबेदार देविन्दर सिंह (JC-826248H)	01 जून 2014
12.	सूबेदार जोगेन्दर सिंह (JC-826251H)	01 जुलाई 2014

*वरिष्ठता दिनांक

अनु क्र.	सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर	पदोन्नति दिनांक
1.	बि.एच.एम. सी. बी. थापा (5847597P) (Now JC – 826284N)	08 जुलाई 2013 01 जुलाई 2013*
2.	बि.एच.एम. नरेश कुमार (2484209N) (Now JC – 826285W)	07 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
3.	बि.एच.एम. राजबीर सिंह (15375654W) (Now JC – 826286Y)	01 अगस्त 2013
4.	बि.एच.एम. एन. श्रीनिवासन (2595934P) (Now JC – 826287F)	03 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
5.	बि.एच.एम. गुरमित सिंह (3392663K)(Now JC – 826288K)	02 सितम्बर 2013 01 सितम्बर 2013*
6.	बि.एच.एम. सुरेन्द्र सिंह (3186504M) (Now JC – 826289M)	02 सितम्बर 2013 01 सितम्बर 2013*
7.	बि.एच.एम. नानक चन्द (2484409K)(Now JC – 826290F)	04 नवम्बर 2013 01 नवम्बर 2013*
8	बि.एच.एम. संजीव कुमार (1413756620P)(Now JC – 826291K)	05 दिसम्बर 2013 01 दिसम्बर 2013*
9.	बि.एच.एम. एम. बालामुरुगन (3992060L)(Now JC – 826292M)	01 दिसम्बर 2013
10.	बि.एच.एम. वि नीतीमोझी (15308695N)(Now JC – 826293P)	01 फरवरी 2014
11.	बि.एच.एम. अजय कुमार (3992213K)(Now JC – 826294X)	03 मार्च 2014 01 मार्च 2014*
12.	बि.एच.एम. रामा राव एन पी (13620046F)(Now JC – 826295A)	01 मार्च 2014
13.	बि.एच.एम. गुरदेव सिंह (3393027H)(Now JC – 826296H)	01 मार्च 2014
14.	बि.एच.एम. सिसाले हिम्मत बालसाहेब (2788831X) (Now JC – 826297L)	01 मई 2014
15.	बि.एच.एम. केवल सिंह (2685889P)(Now JC – 826298N)	01 जून 2014
16.	बि.एच.एम. युमनाम बसंता सिंह (4363090Y)(Now JC – 826299W)	01 जून 2014
17.	बि.एच.एम. सुन्दर सिंह (15462569K)(Now JC – 826300A)	01 जुलाई 2014

*वरिष्ठता दिनांक

अलका जोशी
अवर सचिव

सं. 224, दिनांक 16 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/दोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना
सेना आयुध कोर
पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर	क्लर्क (एम डी)	उपेंद्र कुमार	जे सी 725136 एफ	01 मार्च 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एम डी)	भीम शंकर शर्मा	जे सी 724998 एन	01 मार्च 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एम डी)	जसविर सिंह	जे सी 725015 ए	01 मई 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	सानापला आनंदराव	जे सी 725077 ए	01 जून 2013

सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	चंद्र कालंत अवस्थी	जे सी 725080 ए	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	गिरिश चंद शाही	जे सी 725880 वाई	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	विनोद कुमार	जे सी 725851 के	01 जुलाई 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	अरविंद कुमार उपाध्याय	जे सी 725881 एफ	01 जुलाई 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	आशुतोष साह	जे सी 725889 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	उन्नि कृष्णन सी	जे सी 725892 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	देबाब्रता देब	जे सी 725918 एक्स	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	मुरली धरन के	जे सी 725930 वाई	01 सितम्बर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	बिष्णु महतो	जे सी 726263 एच	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	कमल सिंह	जे सी 726287 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	चांदी प्रसाद	जे सी 726393 एल	01 नवम्बर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (आई एम)	अजोय नंदी	जे सी 726322 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	मोहम्मद गफिर खान	जे सी 726383 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	क्लर्क (एस डी)	पी के नझार	जे सी 726369 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	राम किशन	जे सी 724854 एल	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	किशोर कुमार प्रधान	जे सी 724932 एक्स	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम्युनिशियन	सोन सिंह	जे सी 725093 एक्स	01 फरवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम्युनिशियन	सुरेंद्र सिंह गिल	जे सी 725133 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम्युनिशियन	ए भरत राधाकिसन	जे सी 725150 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एण्ड सी	सुरेंद्र पाल	जे सी 725221 के	01 फरवरी 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एण्ड सी	सुभाष चंद	जे सी 725211 ए	01 मार्च 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एण्ड सी	श्रीश कुमार मालविया	जे सी 725213 एल	01 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एण्ड सी	ए बी गनी कुमार	जे सी 725356 एल	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एण्ड सी	अशोक कुमार	जे सी 725646 एच	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	राम सेवक पाल	जे सी 725653 वाई	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम्युनिशियन	भूरे सिंह	जे सी 725661 एक्स	01 सितम्बर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	गोपी राम	जे सी 725688 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	गोपाल सिंह राठोड	जे सी 725689 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	अम्बालाल जांगिड	जे सी 725792 एच	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	पर्वत सिंह सिसोदिया	जे सी 725756 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	एस के टी एम्युनिशियन	ब्रिज मोहन	जे सी 725858 एन	01 दिसम्बर 2013

सूबेदार मेजर	एस के टी इंजिनियर	बाबु सिंह	जे सी 725773 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	ड्राइवर स्पेशल	महिपाल सिंह	जे सी 727216 एक्स	01 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर	ड्राइवर एम टी	सतविंदर सिंह	जे सी 727632 एफ	01 मई 2013
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	गुरबचन सिंह	जे सी 727475 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	रत्नकांत राभा	जे सी 727525 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	मानकराम	जे सी 727641 एच	01 जून 2013
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	रघुबिर सिंह	जे सी 727646 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	एम मुना सेकरन	जे सी 727678 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार मेजर	सपोर्टिंग स्टाफ इ आर	करुणाकरन पी वी	जे सी 727030 एन	01 मई 2013
सूबेदार मेजर	पेंटर और डकोरेटर	हरि शंकर	जे सी 727972 के	01 मई 2013
सूबेदार मेजर	अर्टिसिअन डब्ल्यू डब्ल्यू	विक्रम सिंह	जे सी 728426 के	01 अक्टूबर 2013

पक्के सूबेदार के रैंक में

सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	कोली सत्यप्पा दुंडप्पा	जे सी 727529 डब्ल्यू	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	एस देवेन्दीरन	जे सी 727530 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	कोडेती नरसिम्हा राव	जे सी 727579 एफ	01 मार्च 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	कन्नु वेंकटा शिवाजी	जे सी 727580 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	मूर्ति एस	जे सी 727597 के	01 मार्च 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	महिमा शंकर मिश्रा	जे सी 727599 पी	01 मई 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	बाबु लाल नायक	जे सी 727623 ए	01 मई 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	बलबीर सिंह	जे सी 727596 एफ	01 जून 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	विजय कुमार	जे सी 727683 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	अमल कुमार मन्ना	जे सी 727684 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	प्रशांत कुमार मिश्रा	जे सी 727601 एफ	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	नागेन्द्र मिश्रा	जे सी 727650 के	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	गीरराज प्रसाद शर्मा	जे सी 727774 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	कैलाश चंद्र जोशी	जे सी 727707 एन	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	नित्यानंद शर्मा	जे सी 727705 एच	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	सूरत सिंह	जे सी 728150 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	डेपले रामा मंजलि	जे सी 727708 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	आम्बरिश पांडे	जे सी 727709 वाई	01 दिसम्बर 2013

सूबेदार	एम्पुनेशियन तकनिशियन	प्रमोद कुमार सिंह	जे सी 727820 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	यशपाल सिंह	जे सी 728058 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुरेंद्रा पाल	जे सी 728227 डब्ल्यू	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	पी गणेशन	जे सी 728475 एम	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	हरि नारायन सिंह	जे सी 728527 एक्स	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	संजय कुमार सिंह	जे सी 728528 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सनंत कुमार	जे सी 728529 एच	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	नीम चंद	जे सी 728530 एक्स	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	योगेंद्र तिवारी	जे सी 728531 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	मेवा लाल	जे सी 728532 एच	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	हरि राम	जे सी 728533 एल	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	विलास चंद्र पाटिल	जे सी 728534 एन	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सुपेकर रामचंद्र पंडितराव	जे सी 728535 डब्ल्यू	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	तम्बोली करीम साहिब गुलाब	जे सी 728589 एक्स	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	बलजीत सिंह	जे सी 728536 वाई	01 जनवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मुन्नी लाल	जे सी 728591 पी	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	हरि कुमार जी	जे सी 728592 एक्स	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	चंदीरा शेखर त्रिपाठी	जे सी 728538 के	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुनील कुमार त्रिपाठी	जे सी 728539 एम	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	हरिभान सिंह	जे सी 728541 के	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	पाटील प्रकाश महादेव	जे सी 728636 के	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राम प्रवेश सिंह	जे सी 728594 एच	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	साखरे अनिल भगवत	जे सी 728543 पी	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	कुलकर्णी संजय रामचंद्र	जे सी 728544 एक्स	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	मुजावर नबिलाल वजीर	जे सी 728545 ए	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	धनवाई मुकुंद भावराव	जे सी 728596 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	भोम्बे उत्तम भगवान राव	जे सी 728597 डब्ल्यू	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राम प्रकाश शर्मा	जे सी 728598 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नरेश कुमार शर्मा	जे सी 728599 एफ	01 फरवरी 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सत प्रकाश	जे सी 728600 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दिलीप कुमार सिंहा	जे सी 728601 एन	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कुरियन एन वी	जे सी 728602 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राजेश कुमार सिंह	जे सी 728603 वाई	01 मार्च 2013

सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जितेंद्र कुमार	जे सी 728605 के	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मिथलेश कुमार गौतम	जे सी 728606 एम	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राजेश कुमार शुक्ला	जे सी 728607 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कदम अर्जुन भीमराव	जे सी 728676 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अशोक कुमार	जे सी 728677 एन	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	इंदान राम	जे सी 728638 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शरवन लाल मीना	जे सी 728639 एक्स	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जीव राज देवरा	जे सी 728640 एम	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	खवाले दादा गणपत	जे सी 728641 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शिव लोचन राम	जे सी 728736 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रविन्द्र नाथ टैगोर	जे सी 728642 एक्स	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुमन पाठक	जे सी 728643 ए	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सत्येंद्र कुमार	जे सी 728645 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मुनेश्वर प्रसाद	जे सी 728644 एच	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राम निवास शर्मा	जे सी 728647 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कमला कन्ज तिवारी	जे सी 728648 वाई	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	विजय कुमार	जे सी 728649 एफ	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सुनील कुमार भाटिया	जे सी 728650 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	एम पांडि राज	जे सी 728679 वाई	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	जय सिंह	जे सी 728651 वाई	01 मार्च 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	राम पाल सिंह	जे सी 728652 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	अयर बी सीतारमन	जे सी 728653 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मुकुंद प्रसाद नायक	जे सी 728680 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दिव्येंद्र दत्ता	जे सी 728682 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	निराकर साहू	जे सी 728683 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सगिरुद्धीन आजाद	जे सी 728684 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अरुण कुमार दास	जे सी 728685 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रमेश बाबू एल एन	जे सी 728686 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	भूपेन्द्र सिंह ठाकुर	जे सी 728687 एक्स	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	अंजनी कुमार पटेल	जे सी 728688 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जी मरि मुथु	जे सी 728689 एच	01 अप्रैल 2013

सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुभाष चन्द्र मन्डल	जे सी 728691 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दिलीप कोले	जे सी 728692 एच	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रत्नेश्वर दास	जे सी 728693 एल	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अमरेश कुमार चतुर्वेदी	जे सी 728694 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	महा सुख	जे सी 728695 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दशरथ प्रसाद	जे सी 728696 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रंजन कुमार दास	जे सी 728697 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	प्रभात शर्मा	जे सी 729050 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बलजीत	जे सी 728698 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सामे सिंह	जे सी 728738 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	राजवीर	जे सी 728739 एच	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	बाबू राम	जे सी 728741 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	रूप लाल	जे सी 728699 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	एम बूपालन	जे सी 728742 एच	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नीलामेगम पी	जे सी 728744 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामा मूर्ति एस	जे सी 728745 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	आर मधु	जे सी 729041 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	एलनगोवन बि	जे सी 728918 एच	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जी मूर्ति	जे सी 728747 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	पाटिल निवासराव बाबूराव	जे सी 728919 एल	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	चीतारि भिमाप्पा कल्लापा	जे सी 728749 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	आर नरसिमन	जे सी 728750 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	महिपाल सिंह मेहता	जे सी 728879 एल	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अरविंद कुमार	जे सी 728751 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	पी गुरुमाथन	जे सी 728792 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	मेरुपुला जगन्नाथम नायडु	जे सी 728752 एम	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मोहम्मद जाकिर हुसैन	जे सी 728794 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामधिर सिंह	जे सी 728795 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	काजल देब	जे सी 728796 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	ब्यास कुमार	जे सी 728797 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अजय कुमार नाथ	जे सी 728753 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शाजि कुमार एम	जे सी 728798 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामा चिवटेकर	जे सी 728754 एक्स	01 अप्रैल 2013

सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रविंद्रन नायर व्हि आर	जे सी 728799 एक्स	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	हरिदेव पानिकर जी	जे सी 728755 ए	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	लाल देव	जे सी 728800 एफ	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राम बाबू महतो	जे सी 728756 एच	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुशिल झा	जे सी 728801 के	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दोमदु डि सोउजा	जे सी 728757 एल	01 मई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	भंवर सिंह नाथवत	जे सी 728802 एम	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अनिल कुमार जोशी	जे सी 728803 पी	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कैलाश चंद्र शर्मा	जे सी 728804 एक्स	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मूल चंद जाट	जे सी 728805 ए	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	गोरधन गुज्जर	जे सी 728806 एच	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मुलेमल्लि नाथ शंकरराव	जे सी 728808 एन	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रोटे भास्कर दगडु	जे सी 728809 डब्ल्यू	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	टि त्रिम्बक मारुती	जे सी 728810 एल	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामप्रकाश सिंह तोमर	जे सी 728812 डब्ल्यू	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नरेंद्र सिंह तोमर	जे सी 728813 वाई	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	गंगाराम दंडोतिआ	जे सी 728846 के	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कदम भरत मारुती	जे सी 728847 एम	01 जून 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	हरुगडे क्रिष्णदेव नामदेव	जे सी 728814 एफ	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जया कुमार जी	जे सी 728283 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	हेतराम सुतार	जे सी 728758 एन	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	जय सिंह	जे सी 728815 के	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	तारा सिंह	जे सी 728816 एम	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शरत चंद्र साहू	जे सी 728817 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बाल मुकुंद पटनायक	जे सी 728818 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	श्यामल घोष	जे सी 728819 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नारायण चंद्र बिश्वास	जे सी 728820 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अरमान अलि	जे सी 728821 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	राममुरत साह	जे सी 728822 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	जॉन व्हि सी	जे सी 728848 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	दिनेश कुमार त्रिपाठी	जे सी 728849 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	जादूमनि मंडल	जे सी 728884 ए	01 जुलाई 2013

सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	प्रोदिप कुमार दास	जे सी 728885 एच	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	अरुण किशोर राउल	जे सी 728851 पी	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	प्रदिप्ता कुमार स्वेन	जे सी 728852 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	गोपीनाथ बेहरा	जे सी 728853 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जतिन्द्रा बेहरा	जे सी 728854 एच	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	गजेंद्र तिवारी	जे सी 728856 एन	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	एम डि अब्दुल जब्बर मुजुमदार	जे सी 728857 डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बलिराम कर्मकर	जे सी 728858 वाई	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	खेजमत अलि शेख	जे सी 728859 एफ	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	गोपिनाथ पांडा	जे सी 728860 डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मोहितोश सरकार	जे सी 728861 वाई	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	बाबुला दलाई	जे सी 728862 एफ	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सत्य नारायन सिंह	जे सी 728863 के	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	माखन सिंह	जे सी 728820 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मुन्ना लाल	जे सी 728866 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	हरिश चंद्र	जे सी 728867 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अनिल कुमार	जे सी 728887 एन	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राजकुमार सिंह	जे सी 728888 डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	विक्रम सिंह	जे सी 728928 एम	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शिव शंकर यादव	जे सी 728929 पी	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सदानन्द सिंह यादव	जे सी 728961 के	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामचंद्र गुप्ता	जे सी 728962 एम	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अर्जुन सिंह	जे सी 728963 पी	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	योगेंद्र कुमार	जे सी 728879 ए	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मदन चंद	जे सी 728980 पी	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जय प्रकाश शर्मा	जे सी 728981 एक्स	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बिजेन्द्र सिंह	जे सी 728982 ए	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शिव दत्त सिंह	जे सी 728983 एच	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दिलदार सिंह	जे सी 728984 एल	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रणबिर सिंह	जे सी 728985 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राम नरेश	जे सी 728986 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कमल किशोर	जे सी 728987 वाई	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुमन कुमार	जे सी 728988 एफ	01 सितम्बर 2013

सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बिसेटटी कासि विस्वानंदाम	जे सी 728989 के	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	महमद दादा मियां	जे सी 728992 के	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	एस रविचंद्रन	जे सी 729031 पी	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	चंद्रकांत रामचंद्रन मोरे	जे सी 728993 एम	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रंजित सिंह	जे सी 729051 एच	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	बहादुर सिंह	जे सी 729042 एफ	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	महेश चंद्रा	जे सी 729052 एल	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सी निकोलस	जे सी 729053 एन	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रविंद्रा सिंह बिश्त	जे सी 729084 एन	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	कान्ता प्रसाद	जे सी 729054 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	एल मोहम्मद मलिक	जे सी 729055 वाई	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सुरेंद्रा सिंह	जे सी 729113 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	संकर कुमार साहू	जे सी 729033 ए	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	पुष्प प्रताप सिंह	जे सी 729056 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	इंद्रजीत शर्मा	जे सी 729043 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	दयाराम सिंह यादव	जे सी 729086 वाई	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राज नरैन सिंह	जे सी 729087 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	महिंदर सिंह	जे सी 729057 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	फयजुल हक लश्कर	जे सी 729058 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	गोविंद चंद्र पटेल	जे सी 729059 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	उपेंद्र कुमार सिंह	जे सी 729114 ए	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राजेश कुमार	जे सी 729060 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	निसित कुमार राम	जे सी 729062 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	कमल कुमार घोष	जे सी 729497 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	रामपाल	जे सी 729063 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	प्रमोद कुमार चौधरी	जे सी 729064 ए	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	उपामयु कुमार	जे सी 729065 एच	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सतिश कुमार सिंह	जे सी 729089 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अयूब खान	जे सी 729090 एफ	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	नागेंद्रा बिजुलि	जे सी 729117 एन	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जय पाल	जे सी 729091 के	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नायब सिंह	जे सी 729092 एम	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	तपस कुमार दास	जे सी 729093 पी	01 नवम्बर 2013

सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	श्यामल पोददार	जे सी 729094 एक्स	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	नागेश्वरराव मोयि	जे सी 729118 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	राधेश्याम शर्मा	जे सी 729119 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कामारपू वेंकटा रामन	जे सी 729121 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	रंगानाथन के	जे सी 729122 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सनापति वेंकटा राव	जे सी 729096 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	मानेन्दर सिंह	जे सी 729123 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	जसवंत सिंह भाटिया	जे सी 729124 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	शिवसागर गुप्ता	जे सी 729126 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जनार्दन प्रसाद भारती	जे सी 729097 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	प्रसन्ना कुमार शाह	जे सी 729144 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	प्रभाकर सिंह	जे सी 729145 ए	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क, एस डी	क्रिष्ण कुमार सिंह	जे सी 729146 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	बेन्नि सी के	जे सी 729148 एन	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सुनील कुमार पात्रा	जे सी 729149 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	सदन कुमार चॅटर्जी	जे सी 729150 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	दिलीप कुमार सिंह	जे सी 729152 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	मलिंद्रनाथ रे	जे सी 729153 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जामदाडे संजय पांडुरंग	जे सी 729154 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	पाटील विलास बाबुराव	जे सी 729155 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	कदम बालु रामराव	जे सी 729156 एम	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	ए पी कुमार बालकृष्ण	जे सी 729157 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	जाधव कैलाश माधवराव	जे सी 729158 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	कुड्डाडे ज्ञानेश्वर धोंडि	जे सी 729159 ए	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	भद्रेश्वर डेका	जे सी 729160 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	शिंदे जोतिराम नामदेव	जे सी 729181 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	सुरेंद्र सिंह दूत	जे सी 729182 एन	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (एम डी)	विनोद प्रसाद साह	जे सी 729183 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	प्रसांत पात्रा	जे सी 729184 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	अलोक कुमार डे	जे सी 729185 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	क्लर्क (आई एम)	आसफर कमिल	जे सी 729186 के	01 दिसम्बर 2013

सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	पनचप्पा शिवासरम	जे सी 727783 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	एम डि रियाजुल हक	जे सी 727735 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	नागेंद्रा कुमार दुबे	जे सी 727736 एच	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	बेगराज	जे सी 727784 एच	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	पुरन छेत्रि	जे सी 728156 ए	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	धिरेंद्रा कुमार द्विवेदी	जे सी 727737 एल	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	चुन्मिलाल	जे सी 727738 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	कृष्णचंद्र बेहरा	जे सी 727785 एल	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	सुदर्शन शाहु	जे सी 727786 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	कुशल राम	जे सी 728435 एल	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	प्रल्हाद स्वामी	जे सी 727844 एम	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	दुर्गा राम घस्वान	जे सी 727757 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	बिजय कुमार	जे सी 727805 एन	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	भावेश ठाकुर	जे सी 727807 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	बिश्वानाथ पाध्य	जे सी 727808 एफ	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	जीवन राम नवाद	जे सी 727758 एफ	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	दीन बंधु चौधरी	जे सी 727760 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	शकिल खान	जे सी 727739 डब्ल्यू	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	उमा शंकर	जे सी 727949 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	माधव चंद्र राय	जे सी 727897 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	महेन्द्रा सिंह यादव	जे सी 727898 एन	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	विद्या सागर	जे सी 727950 एल	01 मार्च 2013

सूबेदार	एस के टी एम टी	एस जोसेफ	जे सी 728014 एच	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	बीरेन्दर सिंह	जे सी 727899 डब्ल्यू	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुभाष चन्द्र पाण्डे	जे सी 727900 ए	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	हरि नाम सिंह	जे सी 728015 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	वीर सिंह	जे सी 728200 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	सूर्यभान सिंह चौहान	जे सी 728197 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	सुरेश कुमार	जे सी 728202 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	सतीश कुमार	जे सी 728248 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	रंजीत सिंह	जे सी 728250 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	मनवीर सिंह	जे सी 728299 ए	01 मई 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरेश कुमार	जे सी 728300 के	01 मई 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	बलबीर सिंह	जे सी 728251 एम	01 मई 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	करमवीर सिंह	जे सी 728301 एम	01 मई 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिवकान्त अवस्थी	जे सी 728252 पी	01 मई 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	बी विजया श्रीनिवास	जे सी 728204 ए	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	आर शिवा शंकरन	जे सी 728305 एच	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	राधा कृष्णन जी	जे सी 728306 एल	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	ईश्वर सिंह	जे सी 728307 एन	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	कृष्णन कुमार	जे सी 728308 डब्ल्यू	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	घासिराम सोलंकी	जे सी 728309 वाई	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	विश्वनाथन एम	जे सी 728313 एफ	01 जून 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	रोहतास	जे सी 728310 एन	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	वी आर एम पटनाइक अमपालाम	जे सी 728312 वाई	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	जगदीश चंद	जे सी 728314 के	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	हिरदानंदा दास	जे सी 728315 एम	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	लक्ष्मीधर साहू	जे सी 728440 डब्ल्यू	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	देबेंद्रा नाथ पलेइ	जे सी 728369 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	चंद्रा मनि सेठी	जे सी 728370 एच	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मोहन कुमार ए के	जे सी 728441 वाई	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	बाबु पिल्लाइ वी	जे सी 728442 एफ	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	प्रकाश चंद्रा नाहक	जे सी 728371 एल	01 अगस्त 2013

सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी जी एस एण्ड सी	सत्य नारायन कार	जे सी 728372 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	सुदेब कुमार सुमंता	जे सी 728373 डब्ल्यू	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	मधु जी	जे सी 728379 एक्स	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	अशोक कुमार	जे सी 728381 पी	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	राकेश सिंह सिसोदिआ	जे सी 728382 एक्स	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	इंजिनियर	राम निवास	जे सी 728489 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	इंजिनियर	राधा कृष्णन जी	जे सी 728490 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	हेम चंद	जे सी 728491 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	सुरेंद्रा सिंह	जे सी 728492 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	अशोक कुमार शर्मा	जे सी 728493 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	कमल कुमार कौशिक	जे सी 728654 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	कृष्णन कुमार	जे सी 728554 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	विरेंद्रा पाल सिंह	जे सी 728610 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टीएम टी	सतिश पी कादि	जे सी 728555 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	आर अरावामुधन	जे सी 728556 एम	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	मृदुल चंद्रा बोराह	जे सी 728557 पी	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	शंभु शरन प्रसाद	जे सी 728616 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	हकिम सिंह	जे सी 728617 वाई	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	योगेश चंद	जे सी 728618 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	गायर सिंह	जे सी 728700 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मथ्यु टी वी	जे सी 728662 एल	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	पुत्तु लाल	जे सी 728664 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	राम ब्रिक्श	जे सी 728701 वाई	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	संजय कुमार मिश्रा	जे सी 728665 वाई	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	नानक सिंह	जे सी 728666 एफ	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	सुबचन	जे सी 728703 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	नरेंद्र सिंह	जे सी 728710 ए	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	करम सिंह	जे सी 728711 एच	01 नवम्बर 2013

सूबेदार	एस के टी सिग्नल	प्रकाश	जे सी 728712 एल	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	लक्ष्मी सिंह	जे सी 728713 एन	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	कृष्णन सिंह रौथेला	जे सी 728714 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	महेश्वर प्रसाद चमोली	जे सी 728715 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	गरिकि कृष्णा राव	जे सी 728716 एफ	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	टेम्बुरु लक्ष्मी नारायण	जे सी 728719 पी	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	ग्यानेंद्रा कुमार मिश्रा	जे सी 728760 एल	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	वाय वी एस नारायण	जे सी 728720 के	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	फारुक हसन	जे सी 728761 एन	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	पवार दत्ता नारायण	जे सी 728762 डब्ल्यू	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	नागरगोजे दत्तात्रय लिम्बाजी	जे सी 728767 पी	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	कुराकुला धर्मारव	जे सी 728768 एक्स	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	श्री निवास राव बोदूरि	जे सी 728769 ए	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	नरहरे ज्ञानबा सोपानराव	जे सी 728771 एक्स	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	सालुंखे संभाजी नारायण	जे सी 728772 ए	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिवेन्दर सिंह कुशवाह	जे सी 728773 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	देव नरेंद्र गणेशराव	जे सी 728774 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	उमा शंकर ओझा	जे सी 728775 एन	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम टी	रंधिर सिंह	जे सी 728776 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	ललता प्रसाद मिश्रा	जे सी 728825 एन	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	सरगार अर्जुन रामु	जे सी 728827 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	ओंकार चंद	जे सी 728826 डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी वेपन	मोहीते अशोक नामदेव	जे सी 728779 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	पी स्वामि नाथन	जे सी 728780 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	एस के फारुक जमाल	जे सी 728781 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी इंजिनियर	प्रणब कुमार हटी	जे सी 728828 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	निले गणपती दगडु	जे सी 728868 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	रणदिवे गोरख नारायण	जे सी 728869 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	बेल भंडारे बाबुराव मलका	जे सी 728830 वाई	01 दिसम्बर 2013

सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	गोंदावले विष्णु शंकर	जे सी 728870 ए	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	सुघर सिंह	जे सी 728831 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	गोबिंद दास झा	जे सी 728832 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	प्रदीप कुमार	जे सी 728833 एम	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	प्रसन्ता नाथ	जे सी 728834 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	मुरलि सिन्हा	जे सी 728835 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी जी एस एण्ड सी	सतिश कुमार	जे सी 728836 ए	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशियन	शंभु नाथ वर्मा	जे सी 728838 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	भगवति प्रसाद शर्मा	जे सी 728839 एन	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	गोपाल छ दास	जे सी 728840 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	विद्या प्रभाकर के	जे सी 728841 एल	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर स्पेशल	नरेंद्र बहादुर सिंह	जे सी 728259 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	ड्राइवर स्पेशल	करन सिंह	जे सी 728159 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	श्रीकांत साहु	जे सी 728256 एल	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रेवांता बहादुर राणा	जे सी 728206 ए	01 मई 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	किशोर उपासराव लूटे	जे सी 728258 डब्ल्यू	01 जून 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	तबकल राय	जे सी 729078 ए	01 जून 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रामचंद्र दूत	जे सी 728414 पी	01 जून 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	ओम प्रकाश	जे सी 728415 एक्स	01 जून 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	अशोक कुमार	जे सी 728416 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	हनुमान राम काला	जे सी 729131 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	उमेद सिंह	जे सी 728417 एच	01 जुलाई 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रवि शंकर मिश्रा	जे सी 728560 पी	01 अगस्त 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	योगेंद्र कुमार शर्मा	जे सी 728623 एम	01 अगस्त 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	धुम सिंह	जे सी 729106 एफ	01 अगस्त 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	महेश कुमार	जे सी 729204 एफ	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रामचंद्र	जे सी 729132 एच	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	वी जगन मोहनराव	जे सी 729205 के	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	तरुण कांति दास	जे सी 729206 एम	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रामानंद सिंह	जे सी 729278 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013

सूबेदार	ड्राइवर एम टी	सुख राम	जे सी 729279 वाई	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	कृष्ण देव शाह	जे सी 729176 ए	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	रतन सिंह	जे सी 729292 एच	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	राघव ठाकुर	जे सी 729397 एम	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	सिया शरण प्रसाद	जे सी 729293 एल	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर स्पेशल	दिनेश कुमार पाण्डे	जे सी 729398 पी	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	पूरन सिंह	जे सी 729399 एक्स	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	ड्राइवर एम टी	स्वर्ण सिंह	जे सी 729461 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	एस आर बी के गुट्टे	जे सी 728420 एच	01 जनवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कनक छ बोरो	जे सी 728421 एल	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	एम मुनि राज	जे सी 728423 डब्ल्यू	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	विजय पाल	जे सी 728424 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	गोरख गिरि	जे सी 728425 एफ	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	उमा शंकर राय	जे सी 728500 ए	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	नशु राम कटियार	जे सी 728501 एच	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राम आधार	जे सी 728561 एक्स	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राम कृष्णा सिंह	जे सी 728562 ए	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	रमेश सिंह	जे सी 728563 एच	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	दिलिप कुमार पौल	जे सी 728624 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	महाविर सिंह तावर	जे सी 728668 एम	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	जगन्नाथ बेरा	जे सी 728723 के	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	जितेंदर सिंह	जे सी 728669 पी	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राम देव	जे सी 728670 के	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राजेंद्रा कुमार	जे सी 728724 ए	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कल्याण सिंह	जे सी 728725 एच	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	चंदर हास	जे सी 728726 एल	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	घन श्याम	जे सी 728727 एम	01 मार्च 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	निताइ चंद्रा मंडल	जे सी 728728 डब्ल्यू	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	उत्तम श्रीपाल बोरगावे	जे सी 728729 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	तेज भान प्रसाद तिवारी	जे सी 728782 के	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	सज्जन सिंह	जे सी 728730 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	भोपाल सिंह	जे सी 728783 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कुमारा स्वामी	जे सी 728844 वाई	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	सुरेंद्र सिंह	जे सी 728784 पी	01 अप्रैल 2013

सूबेदार	एस एच जी डी	वासवा चमनभाई	जे सी 728845 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	मुक्ता मोहन राव	जे सी 728883 एक्स	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	शशि कांत राय	जे सी 728977 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	बिरेन्द्रा कुमार यादव	जे सी 728912 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	जयराम पांडे	जे सी 728914 एम	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राज कुमार सिंह	जे सी 728915 पी	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	सत्य पाल	जे सी 728916 एक्स	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राम प्रताप कुशवाह	जे सी 728917 ए	01 मई 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	प्रेम सिंह	जे सी 728949 एच	01 मई 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कनेरी लवु भगवान	जे सी 728953 एल	01 जून 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	अनंत कुमार सिंह	जे सी 728956 वाई	01 जून 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	पाटील वसंत भिमराव	जे सी 729016 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	देवरे राजेंद्रा विठ्ठल	जे सी 729019 ए	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	रनवीर सिंह	जे सी 729020 एच	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	दिनेश कुमार शुक्ला	जे सी 729021 एल	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	नारद उपाध्या	जे सी 729022 एन	01 अगस्त 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	भगवान सिंह	जे सी 729023 डब्ल्यू	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	फकीर सिंह	जे सी 729024 वाई	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राजबीर सिंह	जे सी 729025 एफ	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	सूर्यकांत बोरा	जे सी 729026 के	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राम बाबू सिंह	जे सी 729027 एम	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	लासाहब यादव	जे सी 729029 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कृष्ण सिंह	जे सी 729110 के	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	कोली लक्ष्मण भाई काला भाई	जे सी 729135 डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	अशोक कुमार चौसी	जे सी 729082 एच	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राजपूत राम सिंह	जे सी 729136 वाई	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राजमल सिंह	जे सी 729(137 एफ	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	नेमी चंद	जे सी 729138 के	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	रामराज सिंह गुर्जर	जे सी 729177 एच	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	राजवंश नरेन मिश्रा	जे सी 729139 एम	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	रमाकांत पाल	जे सी 729140 एफ	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	रिटू गोगोइ	जे सी 729248 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	एस एच जी डी	साहेब बहादुर	जे सी 729111 एम	01 दिसम्बर 2013

सूबेदार	एस एच टी	सियानंद गुप्ता	जे सी 729244 एच	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच टी	सुशील ठाकुर	जे सी 729245 एल	01 फरवरी 2013
सूबेदार	एस एच टी	राजाराम बाले कुंदरी	जे सी 729246 एन	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच टी	देवेंद्र कुमार	जे सी 729288 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच टी	मोहम्मद कलीम खान	जे सी 729400 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच टी	बलराम सिंह	जे सी 729289 एच	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच टी	भोला राय	जे सी 729462 एफ	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	एस एच टी	रामकृष्णा कुरुप	जे सी 729463 के	01 मई 2013
सूबेदार	एस एच टी	अरविंद कुमार	जे सी 729547 एक्स	01 जुलाई 2013
सूबेदार	एस एच टी	केशव प्रसाद	जे सी 729721 वाई	01 सितम्बर 2013
सूबेदार	एस एच टी	अमृत कुमार दास	जे सी 729774 एक्स	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार	एस एच टी	साहेब सिंह	जे सी 729775 ए	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस एच टी	मोहन लाल	जे सी 729776 एच	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस एच टी	पूनम कुमार	जे सी 729814 एन	01 नवम्बर 2013
सूबेदार	एस एच टी	नरेंद्र सिंह	जे सी 729850 वाई	01 दिसम्बर 2013
सूबेदार	टेलर 'यु '	बलदेव सिंह	जे सी 727354 वाई	01 फरवरी 2013
सूबेदार	टेलर 'यु '	सत्यपाल	जे सी 727416 एन	01 मार्च 2013
सूबेदार	अर्टिसिअन डब्ल्यू डब्ल्यू	अमरजीत यादव	जे सी 729551 ए	01 अप्रैल 2013
सूबेदार	अर्टिसिअन डब्ल्यू डब्ल्यू	मोहम्मद तशावर हुसैन अंसारी	जे सी 730015 के	01 अक्टूबर 2013

राजीव जोहरी
अवर सचिव

सं. 225, दिनांक 17 सितम्बर 2014— राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

थलसेना विभाग (एम जी ओ)

इलेक्ट्रानिक्स और मेकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मिक

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में

01	नरेन्द्र कुमार सिंह एम	(14653127 एक्स अब जेसी — 768049 एफ)	27 फरवरी 2013 01 फरवरी 2013*
02	भंवर लाल	(14653869 एक्स अब जेसी — 768150 एफ)	01 मार्च 2013
03	चौधरी राजु सिंह	(14653153 वाई अब जेसी — 768147 एफ)	01 मार्च 2013
04	भरत सिंह	(14653157 पी अब जेसी — 768149 एम)	04 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
05	दभाडे सुरेश लक्ष्मन	(14653149 डब्ल्यू अब जेसी — 768144 एन)	01 मार्च 2013
06	पूरन सिंह	(14653114 ए अब जेसी — 768048 एन)	05 मार्च 2013 01 फरवरी 2013*
07	तम्बे राम्राव बापूराव	(14653144 एक्स अब जेसी — 768060 ए)	11 फरवरी 2013 01 फरवरी 2013*

08	नवल कुमार मिश्रा	(14653148 एन अब जेसी — 768143 एल)	01 मार्च 2013
09	रानावरे संजय बापू	(14653141 के अब जेसी — 768057 ए)	02 मार्च 2013 01 फरवरी 2013*
10	रामजी	(14653860 एच अब जेसी — 768146 वाई)	12 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
11	यादव शिव गोपाल देवदत्ता	(14653859 एन अब जेसी — 768145 डब्ल्यू)	02 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
12	महेश चन्द	(14653156 एम अब जेसी — 768148 के)	04 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में			
13	हरिहर प्रसाद	(14614166 ए अब जेसी — 768075 एच)	12 फरवरी 2013 01 फरवरी 2013*
14	राजा राम	(14612758 ए अब जेसी — 768019 के)	02 मार्च 2013 01 फरवरी 2013*
15	सत्यबीर सिंह	(14614229 एक्स अब जेसी — 768153 पी)	04 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क (एम डी) के रैंक में			
16	उदय नाथ दाश	(14615565 डब्ल्यू अब जेसी — 768169 ए)	02 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
17	महेश्वर पुहन	(14615568 के अब जेसी — 768170 पी)	01 मार्च 2013
18	अजित कुमार स्वैन	(14615570 एफ अब जेसी — 768171 एक्स)	01 मार्च 2013
19	नरेन्द्र कुमार शर्मा	(1461991 एक्स अब जेसी — 768128 डब्ल्यू)	01 मार्च 2013
20	संजीत कुमार साह	(14605434 एल अब जेसी — 768172 ए)	01 मार्च 2013
21	दिलेश्वर मलाना	(14615590 पी अब जेसी — 768124 ए)	01 मार्च 2013
22	माने बाबन नारायन	(14615013 एच अब जेसी — 768126 एल)	01 मार्च 2013
23	रमेश चन्द	(14615406 वाई अब जेसी — 768168 एक्स)	04 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
24	संजीव कुमार	(14615231 एफ अब जेसी — 768931 एच)	01 फरवरी 2013
सूबेदार से सूबेदार मेजर क्लर्क (एम डी) के रैंक में			
25	अनिल कुमार	(14615473 के अब जेसी — 768174 एल)	11 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
26	हरी कृष्णा शुक्ला	(14615044 एच अब जेसी — 768120 के)	01 मार्च 2013
27	राज कुमार	(14615410 एफ अब जेसी — 768173 एच)	12 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में			
28	मत्बर सिंह बिस्त	(14609496 पी अब जेसी — 768155 ए)	01 मार्च 2013
29	शर्मले रामभाउ भीमा	(14608814 एफ अब जेसी — 768159 डब्ल्यू)	04 मार्च 2013 01 मार्च 2013*
30	वी वेंकट नरसिम्हा राव	(14608997 एच अब जेसी — 768165 के)	01 मार्च 2013
31	पबित्रा हजारिका	(14608969 डब्ल्यू अब जेसी — 768160 एल)	01 मार्च 2013
32	कलामुदिन लस्कर	(14607781 पी अब जेसी — 768424 पी)	07 नवम्बर 2012 01 नवम्बर 2012*

33	बालमुकुन्द चौबे	(14608630 एच अब जेसी — 767999 के)	13 फरवरी 2013 01 फरवरी 2013*
34	बसन्ता कुमार पानिग्रही	(14609532 पी अब जेसी — 768158 एन)	01 मार्च 2013
35	सरता कुमार लेंका	हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एन टेक (ए एफ) के रैंक में (14621454 पी अब जेसी — 767870 डब्ल्यू)	02 जनवरी 2013 01 दिसम्बर 2012*
36	पी संधना कुमार	(14634852 पी अब जेसी — 766687 एफ)	20 अक्टूबर 2012 22 अक्टूबर 2011*
37	जाहिर अहमद	हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एन टेक (ईलेक्ट) के रैंक में (14609029 एक्स अब जेसी — 768198 पी)	01 अप्रैल 2013
38	अनिल कुमार वी एस	हवलदार से नायब सूबेदार आटो ईलेक्ट (ए वेहीकल) के रैंक में (14639291 पी अब जेसी — 767386 के)	01 अक्टूबर 2012
	* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
01	गुर्मिन्दर सिंह	हवलदार से नायब सूबेदार टेक (कम्यूनिकेशन) के रैंक में (14617517 पी अब जेसी — 768568 के)	05 जुलाई 2013 01 जुलाई 2013*
02	राजपूत नरेन्द्र सिंह पौल्लसिंह	हवलदार से नायब सूबेदार आटो ईलेक्ट (बी वेहीकल) के रैंक में (14647025 एल अब जेसी — 768586 एम)	09 जुलाई 2013 22 जून 2013*
03	भूश राम	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहीकल) के रैंक में (14623733 वाई अब जेसी — 768635 के)	01 अगस्त 2013
04	रमेश कुमार	(14626189 एन अब जेसी — 768599 के)	23 जुलाई 2013 13 जुलाई 2013*
05	रज्जुन कुमार बेउरा	(14625782 ए अब जेसी — 768642 ए)	01 अगस्त 2013
06	दूलन शेख	(14622001 डब्ल्यू अब जेसी — 768633 वाई)	01 अगस्त 2013
07	एम सुन्दरम	(14625495 डब्ल्यू अब जेसी — 768638 एक्स)	01 अगस्त 2013
08	मनीश कुमार झा	(14627461 एफ अब जेसी — 768606 पी)	08 अगस्त 2013 01 जुलाई 2013*
09	राधे श्याम	(14611047 वाई अब जेसी — 768656 ए)	01 अगस्त 2013
10	पवार बालभीम ट्रैम्बक	(14630054 के अब जेसी — 768658 एल)	01 अगस्त 2013
11	बिधान सी एच मल्लिक	(14622659 डब्ल्यू अब जेसी — 768665 एफ)	01 अगस्त 2013
12	ओहल नन्द कुमार जयराम	(14624768 एफ अब जेसी — 768596 डब्ल्यू)	10 जुलाई 2013 01 जुलाई 2013*
13	किरण कुमार तिवारी	(14619941 डब्ल्यू अब जेसी — 768655 एफ)	01 अगस्त 2013
14	अजय पाल	(14631269 पी अब जेसी — 768629 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
15	उत्तम प्रकाश सिंह	(14626434 एल अब जेसी — 768600 एन)	05 अगस्त 2013 01 जुलाई 2013*
16	कनै बाबूराव विष्णु	(14627887 एच अब जेसी — 768644 एल)	01 अगस्त 2013 01 जुलाई 2013*
17	रमेश विश्वकर्मा	(14625657 डब्ल्यू अब जेसी — 768640 पी)	01 अगस्त 2013
18	करम चन्द	(14625072 एच अब जेसी — 768639 ए)	01 अगस्त 2013
19	एम सैथिल कुमार	(14630924 डब्ल्यू अब जेसी — 768628 एन)	01 अगस्त 2013

20	चवान सुरेश पाण्डुरंग	(14625136 एच अब जेसी - 768637 पी)	01 अगस्त 2013
21	राजेन्द्रन पी	(14630596 एन अब जेसी - 768645 एन)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में			
22	हरेश्वर गिरी	(14628796 एल अब जेसी - 768592 ए)	03 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में			
23	सतेन्द्र सिंह	(14631309 एल अब जेसी - 768615 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
24	देवेन्द्र सिंह गुप्ता	(14631823 पी अब जेसी - 768614 एन)	01 अगस्त 2013
* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।			
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में			
01	गरासिया दिनेश कुमार के	(14607454 के अब जेसी - 768652 के)	01 अगस्त 2013
02	रमाधर यादव	(14608127 एल अब जेसी - 768589 ए)	11 जुलाई 2013
01 जुलाई 2013*			
03	मदन मोहन उपाध्याय	(14610039 एन अब जेसी - 768574 एक्स)	01 जुलाई 2013
04	श्यामल शाह	(14609413 वाई अब जेसी - 768571 के)	01 जुलाई 2013
05	रविन्दर पाल	(14608984 एल अब जेसी - 768572 एम)	01 जुलाई 2013
06	राजू के	(14609426 डब्ल्यू अब जेसी - 768573 पी)	11 जुलाई 2013
01 जुलाई 2013*			
07	रविन्द्र यादव	(14609466 एक्स अब जेसी - 768613 एल)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और डाइवर (रिकवरी) के रैंक में			
08	ओम प्रकाश	(14653204 एफ अब जेसी - 768562 एच)	01 जुलाई 2013
09	महेन्द्र सिंह जाखर	(14653206 एम अब जेसी - 768563 एल)	01 जुलाई 2013
10	राम किशोर सैनी	(14653202 डब्ल्यू अब जेसी - 768525 पी)	19 जून 2013
01 जून 2013*			
हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में			
11	अरविन्दाक्षन के	(14614261 एम अब जेसी - 768129 वाई)	24 जून 2013
25 मई 2013*			
12	सुरेश कुमार आर	(14614848 एल अब जेसी - 767724 डब्ल्यू)	01 जून 2013
01 मार्च 2013*			
13	सुरेश कुंदर्गी	(14614880 ए अब जेसी - 768585 के)	01 जुलाई 2013
14	सुरेन्द्र सिंह	(14614785 एन अब जेसी - 768584 एफ)	03 जुलाई 2013
01 जुलाई 2013*			
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहीकल) के रैंक में			
15	एस सरवनन	(14625934 डब्ल्यू अब जेसी - 768643 एच)	01 अगस्त 2013
16	संजीव कुमार	(14621782 एच अब जेसी - 768631 एन)	01 अगस्त 2013
17	निखिल चन्द दाश	(14623502 एच अब जेसी - 768593 एच)	29 जुलाई 2013
01 जुलाई 2013*			
18	ठीकू राम भिल	(14620924 एच अब जेसी - 768657 एच)	03 अगस्त 2013
01 अगस्त 2013*			
19	बूलन देय	(14625942 पी अब जेसी - 768602 वाई)	24 जुलाई 2013
01 जुलाई 2013*			

20	दयानन्द कुमार	(14624213 ए अब जेसी — 768636 एम)	01 अगस्त 2013
21	के नवनीथ कृष्णन	(14630927 के अब जेसी — 768859 एन)	01 अगस्त 2013
22	धर्मेन्द्र कुमार वर्मा	(14622531 एल अब जेसी — 768667 एम)	07 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
23	गोपीनाथ सी	(14625719 एल अब जेसी — 768641 एन)	1 अगस्त 2013
24	आबेन्द नाथ बिस्वास	(14619495 ए अब जेसी — 768663 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
25	राकेश कुमार	(14625435 एफ अब जेसी — 768598 एफ)	11 जुलाई 2013 01 जुलाई 2013*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में

26	कौशिक साहा	(14628825 पी अब जेसी — 768626 एच)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में			
27	भवानी दाश	(14631259 एल अब जेसी — 768605 एम)	31 जुलाई 2013 01 जुलाई 2013*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में

28	सुनिल कुमार	(14621042 एन अब जेसी — 768616 वाई)	01 अगस्त 2013
----	-------------	------------------------------------	---------------

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

हवलदार से नायब सूबेदार अर्मामेंट (ए एफ वी/डी) के रैंक में

01	रविन्द्र प्रसाद	(14612196 वाई अब जेसी — 768647 वाई)	01 अगस्त 2013
02	ग्यान प्रकाश	(14615792 डब्ल्यू अब जेसी — 768648 एफ)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में			
03	परमार जगदीश कुमार	(14616156 पी अब जेसी — 768646 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक (बी वेहीकल) के रैंक में			
04	विनोद कुमार सिंह	(14607389 पी अब जेसी — 768566 वाई)	01 अगस्त 2013
05	सुदर्शन नायक	(14607415 एल अब जेसी — 768620 के)	01 अगस्त 2013
06	राजेश कुमार	(14607632 एफ अब जेसी — 768621 के)	01 अगस्त 2013
07	अशोक कुमार	(14607685 ए अब जेसी — 768622 एम)	01 अगस्त 2013
08	रतुल गोगोई	(14608028 एच अब जेसी — 768623 पी)	01 अगस्त 2013
09	बिजेन्द्र सिंह	(14608131 एन अब जेसी — 768624 एक्स)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में			
10	राम नरेश	(14613709 पी अब जेसी — 768649 के)	06 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में

11	अमर सिंह	(14621057 डब्ल्यू अब जेसी — 768617 एफ)	01 अगस्त 2013
हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहीकल) के रैंक में			
12	जोयदेब दत्ता	(14624669 वाई अब जेसी — 768595 एन)	08 अगस्त 2013 01 जुलाई 2013*
13	श्री कुमार के	(14621879 एन अब जेसी — 768632 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
14	हिन्द राज	(14631144 एक्स अब जेसी — 768660 एच)	06 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
15	प्रभाकर चौधरी	(14619239 एल अब जेसी — 768662 एन)	01 अगस्त 2013

16	गुरनाम सिंह	(14622710 एल अब जेसी - 768551 डब्ल्यू)	13 अगस्त 2013 22 जून 2013*
17	अर्शद अली मोण्डल	(14626457 एम अब जेसी - 767677 के)	19 अगस्त 2013 01 नवम्बर 2012*
18	प्रेम कुमार	(14619727 एन अब जेसी - 768630 एल)	26 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
19	पाटिल विनोद धनसिंह	(14621105 एल अब जेसी - 768664 वाई)	20 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
20	सर्वजीत यादव	(14631168 एफ अब जेसी - 768661 एल)	24 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
21	आर तिरुमलजागन	(14622447 एल अब जेसी - 768666 के)	09 अगस्त 2013 01 अगस्त 2013*
22	सिनेश कुमार	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में (14628817 डब्ल्यू अब जेसी - 768627 एल)	01 अगस्त 2013
23	विजयन एसा	हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में (14618878 ए अब जेसी - 768692 एल)	21 अगस्त 2013 03 अगस्त 2013*
24	एम अशोकन	(14627787 एक्स अब जेसी - 768690 ए)	24 अगस्त 2013 03 अगस्त 2013*

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

हवलदार से नायब सूबेदार कर्लक 1/4, e Mh 1/2 के रैंक में			
01	उन्नी कृष्णन सी एन	(14614454 एम अब जेसी - 767467 के)	01 अक्टूबर 2013
02	उदय भान सिंह	(14615029 एन अब जेसी - 767766 एच)	08 जनवरी 2013 01 जनवरी 2013*
03	नागेन्द्र सिंह	(14614980 एल अब जेसी - 767759 एम)	01 जनवरी 2013
04	सतिश कुमार	(14614779 ए अब जेसी - 767770 एल)	01 जनवरी 2013
05	गोविन्द कुमार	(14614959 एच अब जेसी - 767757 एफ)	01 जनवरी 2013
06	एम मोनिरुज जामन	(14614859 एक्स अब जेसी - 767753 एल)	01 जनवरी 2013
07	राधे लाल	(14615050 डब्ल्यू अब जेसी - 767773 वाई)	01 जनवरी 2013
08	मोर नामदेव विट्ठल	(14615017 वाई अब जेसी - 767760 एफ)	01 जनवरी 2013
09	निगथोजम सुनसन सिंह	(14614742 वाई अब जेसी - 767767 एल)	05 जनवरी 2013 01 जनवरी 2013*
10	पनधारे अन्नप्पा यशवंत	(14615020 वाई अब जेसी - 767762 एम)	01 जनवरी 2013
11	महेन्द्र कुमार स्वेन	(14615078 डब्ल्यू अब जेसी - 767914 एच)	01 जनवरी 2013
12	शेक मौलाली	हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एन (ए एफ) के रैंक में (14617871 के अब जेसी - 767718 एच)	08 दिसम्बर 2012 01 नवम्बर 2012*
13	सुनिल दत्त कोडल	हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में (14608125 ए अब जेसी - 767736 एल)	04 जनवरी 2013 01 दिसम्बर 2012*

14	भुवन चन्द्रा पारगेन	(14608213 डब्ल्यू अब जेसी — 767886 एफ)	01 जनवरी 2013 01 दिसम्बर 2012*
15	विनोद कुमार चौबे	(14608568 एफ अब जेसी — 767887 के)	01 जनवरी 2013
16	कसतुर्बा नन्द	(14608240 ए अब जेसी — 767891 एम)	01 जनवरी 2013
17	अमरिक सिंह	(14608253 एक्स अब जेसी — 767892 पी)	01 जनवरी 2013
18	रनबीर सिंह	(14608364 पी अब जेसी — 767895 एच)	01 जनवरी 2013
19	गिरिश कुमार एन के	(14608188 एच अब जेसी — 767730 के)	14 जनवरी 2013 01 दिसम्बर 2012*
20	जवाहर सिंह	(14607500 एन अब जेसी — 767944 ए)	09 जनवरी 2013 01 जनवरी 2013*
हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में			
21	लियाकत अली खान	(14614757 एफ अब जेसी — 767781 एक्स)	02 जनवरी 2013 01 जनवरी 2013*
22	सुभाश चन्द्रा नायक	(14614776 एम अब जेसी — 767783 एच)	01 जनवरी 2013
हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और डाइवर (रिकवरी) के रैंक में			
23	भूप सिंह	(14605373 एल अब जेसी — 767848 एल)	01 दिसम्बर 2012
24	आशिश भौमिक	(14603325 एम अब जेसी — 767877 ए)	08 जनवरी 2013 01 जनवरी 2013*
25	गोपाल शर्मा	(14601955 एन अब जेसी — 767875 पी)	20 दिसम्बर 2012 01 नवम्बर 2012*
26	शिवजी राय	(14604792 डब्ल्यू अब जेसी — 767876 एक्स)	01 जनवरी 2013 01 दिसम्बर 2012*
हवलदार से नायब सूबेदार डाइवर (एम टी) के रैंक में			
27	मोम्मद रमजान अंसारी	(14602144 पी अब जेसी — 767897 एन)	28 दिसम्बर 2012 08 दिसम्बर 2012*

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (एस ए) के रैंक में			
01	विनोद चन्द	(146(13747 एल अब जेसी — 767839 एन)	01 दिसम्बर 2012
02	दिनेश कुमार त्रिपाठी	(14613111 के अब जेसी — 767636 ए)	01 दिसम्बर 2012
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में			
03	अपुर्बा रंजन दत्ता	(14622736 ए अब जेसी — 767872 एफ)	12 दिसम्बर 2012 01 दिसम्बर 2012*
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ईलेक्ट) के रैंक में			
04	भवानी दत्त	(14628571 एच अब जेसी — 766705 वाई)	17 दिसम्बर 2012 01 दिसम्बर 2012*
एच एम टी से नायब सूबेदार आटो टेक इंजिनियर इक्युपमेंट के रैंक में			
05	प्रदीप कुमार	(14631439 एन अब जेसी — 767807 एफ)	03 दिसम्बर 2012 01 दिसम्बर 2012*
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (सी वेहीकल) के रैंक में			
06	संतोश कुमार पाण्डेय	(14631419 ए अब जेसी — 767805 डब्ल्यू)	13 दिसम्बर 2012 01 दिसम्बर 2012*

07	राजेश कुमार वर्मा	(14631423 एच अब जेसी - 767695 एम)	01 दिसम्बर 2012
08	आनंद सिंह नेगी	(14631460 डब्ल्यू अब जेसी - 767698 ए)	13 दिसम्बर 2012
			01 दिसम्बर 2012*
09	एम भूमी	(14627308 एल अब जेसी - 767802 एच)	01 दिसम्बर 2012
10	जय सिंह महला	(14626486 एफ अब जेसी - 767678 एम)	12 दिसम्बर 2012
			01 दिसम्बर 2012*
11	एस जनार्दन रेड्डी	(14631357 एल अब जेसी - 767693 एफ)	01 दिसम्बर 2012
12	विकाश कुमार	(14631455 एल अब जेसी - 767696 पी)	10 दिसम्बर 2012
			01 दिसम्बर 2012*
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (रडार) के रैंक में			
13	सकलानी कुलदीप सिंह ए एस	(14628658 के अब जेसी - 767644 वाई)	12 दिसम्बर 2012
			01 नवम्बर 2012*
14	यतिन्दर सिंह रावत	(14626789 डब्ल्यू अब जेसी - 767643 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (नेट वर्किंग) के रैंक में			
15	सांवत सुहास रामचन्द्रा	(14621(137 एन अब जेसी - 766826 ए)	17 दिसम्बर 2012
			01 नवम्बर 2012*
16	मोती सिंह चौहान	(14622005 एम अब जेसी - 767650 एम)	18 दिसम्बर 2012
			01 नवम्बर 2012*
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (गन) के रैंक में			
17	टी चेन्नकेसवुलु	(14623096 वाई अब जेसी - 767665 पी)	01 दिसम्बर 2012
18	प्रसेनजीत खान	(14629694 एफ अब जेसी - 767646 के)	01 नवम्बर 2012
19	अब्दुल जलील एम आलिकोया	(14622735 एक्स अब जेसी - 767663 के)	01 नवम्बर 2012
एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में			
20	रंजीत सिंह पूनिया	(14615652 के अब जेसी - 767641 एल)	01 दिसम्बर 2012
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी वेहीकल) के रैंक में			
21	नागेद पाण्डेय	(14624193 एक्स अब जेसी - 766542 डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2012
			01 नवम्बर 2012*
22	हुक्मा राम चौधरी	(14631850 वाई अब जेसी - 767803 एल)	16 दिसम्बर 2012
			01 दिसम्बर 2012*
23	मल्लेश्वरा राव आकुला	(14622831 एम अब जेसी - 766053 एल)	10 दिसम्बर 2012
			01 अक्टूबर 2012*
24	मनोज कुमार गिरी	(14622781 एम अब जेसी - 765995 पी)	19 दिसम्बर 2012
			01 मार्च 2011*
25	मनोज कुमार	(14630339 डब्ल्यू अब जेसी - 767690 एन)	01 दिसम्बर 2012
एच एम टी से नायब सूबेदार मास्टर टेक (ए वेहीकल) के रैंक में			
26	सुब्रत कुमार माहापात्रा	(14621449 के अब जेसी - 766356 ए)	19 दिसम्बर 2012
			01 सितम्बर 2011*

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

एस एन यादव
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 226, दिनांक 17 सितम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियों/पदोन्नति करते हैं :—

(नियमित सेना इन्फैन्ट्री जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार (लिपिक) युधबीर सिंह (जेसी 592963एम)	29 जुलाई 2013
सूबेदार मेजर लिपिक रैंक में 01 जून 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अब्दुल कबीर (जेसी 593020ए)	30 जुलाई 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जून 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार यश पाल (जेसी 592920एक्स)	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार लिपिक प्रताप सिंह कपकोटी (जेसी 592986एन)	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर लिपिक रैंक में 01 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार सरदारी लाल शर्मा (जेसी 592989एफ)	01 अगस्त 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार हरबंस लाल (जेसी 592791एच)	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी 592923एल)	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार सागर सिंह (जेसी 593182एल)	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अब्दुल मजीद (जेसी 593281एन)	01 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार डिपुटी राज (जेसी 593372ए)	05 जनवरी 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अब्दुल कयूम (जेसी 592893वाई)	02 मार्च 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार मोहन लाल (जेसी 592895के)	01 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अब्दुल मजीद माग्रे (जेसी 593025वाई)	04 अप्रैल 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार वीर सिंह (जेसी 593042वाई)	03 मई 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार ज्ञान चंद (जेसी 593065ए)	03 मई 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार विजय कुमार (जेसी 593032पी)	03 मई 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार कमल सिंह (जेसी 593045एम)	02 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार अशोक कुमार (जेसी 593468ए)	01 अक्टूबर 2013
सूबेदार मेजर रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार (धर्म गुरु) भरत भूषण शर्मा (जेसी 174943वाई)	21 मई 2013
सूबेदार मेजर (धर्म गुरु) रैंक में 21 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

सूबेदार (धर्म गुरु) एम डी महबुबार रहमान (जेसी 174044एफ)	01 जून 2013
सूबेदार मेजर (धर्म गुरु) रैंक में 01 जून 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
सूबेदार (धर्म गुरु) सरयू प्रसाद शुक्ल (जेसी 166593एम)	01 जून 2013
सूबेदार मेजर (धर्म गुरु) रैंक में 01 जून 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए	
सोलजर टैक्नीशियन शतीश पाण्डेय (15701022के अब जेसी 594113एफ)	04 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 फरवरी 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
रिक्रूट (धर्म गुरु) मन्दीप सिंह अब (जेसी 594201एक्स)	24 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 24 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
सोलजर (जी डी)मुक्कर्म अली (2998525ए अब जेसी 154238वाई)	24 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 24 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
सोलजर (जी डी) अरविद सिंह (15338394 अब जेसी 594239एल)	24 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 24 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सोमनाथ (9089582एल अब जेसी 594355के)	12 अगस्त 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार घनी शाम (9094437एक्स अब जेसी 594356एम)	16 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जागर मल (9094438ए अब जेसी 594357एल)	05 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 12 सितम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद वशरत (9096051डब्ल्यू अब जेसी 594358एक्स)	03 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सागर सिंह (9096628एल अब जेसी 594359ए)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अगस्त 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार (9096931एम अब जेसी 594360पी)	01 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) सन्तोश कुमार राय (9096941डब्ल्यू अब जेसी 594361एक्स)	1 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) सुरेश कुमार गुलेरिया (9096942वाई अब जेसी 594362ए)	05 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार हीरा लाल (9089911डब्ल्यू अब जेसी 594363एच)	16 अक्टूबर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) सुनील कुमार (9096945एम अब जेसी 594364एल)	18 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद सलीम कटोच (9096601एन अब जेसी 594375एक्स)	18 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार परवीन सिंह चिब (9089912वाई अब जेसी 594376ए)	02 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार अब्दुल मजीद कटारिया (9096067एफ अब जेसी 594377एच)	02 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बरकत अली माग्रे (9096609ए अब जेसी 594378एल)	18 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 18 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल वाहिद डार (9096642एक्स अब जेसी 594379एन)	18 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विक्रम सिंह (9096491के अब जेसी 594365एन)	23 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 31 अक्टूबर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार द्वारका नाथ (9089189एच अब जेसी 594366डब्ल्यू)	11 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 05 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बलबीर चन्दर (9089208एच अब जेसी 594367वाई)	11 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 06 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहिन्दर कुमार (9089906एल अब जेसी 594368एफ)	13 सितम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नासर हुसैन (9089683वाई अब जेसी 594369के)	26 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गोपाल दास (9094353के अब जेसी 594370वाई)	26 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 नवम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार दर्शन लाल (9094237एफ अब जेसी 594371एफ)	01 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राज सिंह (9094621एच अब जेसी 594372के)	02 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय सिंह (9094442एच अब जेसी 594373एम)	02 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राज कुमार (9094439एच अब जेसी 594374पी)	02 दिसम्बर 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रवी दत्त (9094431डब्ल्यू अब जेसी 594352डब्ल्यू)	23 अगस्त 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जून 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) बलबीर सिंह (9096845एफ अब जेसी 594353वाई)	28 अगस्त 2013
नायब सूबेदार लिपिक रैंक में 01 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) नरिन्द्र सिंह (9096850एम अब जेसी 594354एफ)	30 अगस्त 2013
नायब सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 अगस्त 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुहम्मद फजल हुसैन एस एम (9094166एल अब जेसी 594343पी)	3 जून 2013
नायब सूबेदार रैंक में 15 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार निसार अहमद भट्ट (9094733एच अब जेसी 594344एक्स)	19 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार उत्तम सिंह (9096451एच अब जेसी 594345ए)	12 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार करामित हुसैन (9096213डब्ल्यू अब जेसी 594346एच)	11 जून 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मखतार अहमद ((90 89852पी अब जेसी 594347एल)	12 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुखतार हुसैन (9096341एन अब जेसी 594348एन)	08 जुलाई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरेन्द्र सिंह चारक (9094422पी अब जेसी 594349डब्ल्यू)	13 जुलाई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 28 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार छत्तर सिंह (9095573ए अब जेसी 594350एल)	12 जून 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) नवीन साही (9096910डब्ल्यू अब जेसी 594351एन)	01 अगस्त 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लाल हुसैन (9095665एल अब जेसी 594336वाई)	20 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रविन्दर सिंह (9096715वाई अब जेसी 594337एफ)	10 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 29 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद शफीक (9095496डब्ल्यू अब जेसी 594338के)	01 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलबीर सिंह (9096676एल अब जेसी 594339एम)	22 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रन्धीर सिंह (9095564वाई अब जेसी 594340एफ)	07 जून 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार स्तेनजिन समतान (9095777एम अब जेसी 594341क)	23 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद असलम (9094909एच अब जेसी 594342एम)	16 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 19 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल गनी (9089996के अब जेसी 594293पी)	08 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार शाह बाज (9094286के अब जेसी 594294एक्स)	08 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप सिंह (9089729डब्ल्यू अब जेसी 594295ए)	02 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राकेश कांत (9089389एक्स अब जेसी 594296एच)	19 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुहम्मद इकबाल वानी (9088484वाई अब जेसी 594297एल)	19 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कबीर हुसैन (9089675ए अब जेसी 594298 एन)	19 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार मुहम्मद शबीर (9089691एक्स अब जेसी 594299डब्ल्यू)	20 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार चमन लाल (9089733वाई अब जेसी 594300ए)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राम लाल (9095968एफ अब जेसी 594301एच)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद मुदसर शफीक (9096090पी अब जेसी 594302एल)	29 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार आरफ हुसैन शाह (9096106पी अब जेसी 594303एल)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद सगीर (9096163डब्ल्यू अब जेसी 594304डब्ल्यू)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अलताफ हुसैन (9096295के अब जेसी 594305वाई)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तारीक अहमद शाह (9096298एक्स अब जेसी 594306एफ)	29 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कफायत उला (9096335ए अब जेसी 594307के)	22 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद इकबाल (9088728एफ अब जेसी 594308एम)	12 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राजेश कुमार (9095979एन अब जेसी 594309पी)	18 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुदेश कुमार (9095593एन अब जेसी 594310के)	28 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अमरजीत सिंह (9095603एम अब जेसी 594311एम)	26 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जफर ईकबाल (9095808एफ अब जेसी 594312पी)	26 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुल्तान सिंह (9095835एल अब जेसी 594313एक्स)	26 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राम पाल (9094922एम अब जेसी 594314ए)	02 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पूरन सिंह (9089382पी अब जेसी 594315एच)	19 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार खादम हुसैन (9089678एन अब जेसी 594316एल)	20 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार फरीद हुसैन (9089838एच अब जेसी 594317एन)	18 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरजीत सिंह (9096692एच अब जेसी 594318डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रियाज खान (9096979ए अब जेसी 594319वाई)	01 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार दलजीत सिंह (9094668एन अब जेसी 594320एन)	29 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद असलम (9096280एफ अब जेसी 594321डब्ल्यू)	10 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जगदीश राज (9099248एक्स अब जेसी 594322वाई)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पवन कुमार (9095790डब्ल्यू अब जेसी 594323एफ)	09 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय कुमार (9095992एक्स अब जेसी 594324के)	06 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप सिंह (9094821वाई अब जेसी 594325एम)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप राज (9095456पी अब जेसी 594326पी)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कनवरजीत सिंह (9095514एन अब जेसी 594327एक्स)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय कुमार (9094791एम अब जेसी 594328के)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जाकिर हुसैन (9095884एन अब जेसी 594329एच)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार श्याम लाल (9095544एल अब जेसी 594330एक्स)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सतबीर सिंह (9095840डब्ल्यू अब जेसी 594331ऐ)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 23 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार रंजीत सिंह (9095510 के अब जेसी 594332एच)	28 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तिलक राज (9089188ए अब जेसी 594333एल)	03 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद फजल (9094925ए अब जेसी 594334एन)	02 अप्रैल 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जहूर अहमद शाह (9096035वाई अब जेसी 594335डब्ल्यू)	03 मई 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार मोहम्मद याकूब खान (9094550एम अब जेसी 594270एन)	12 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद सादिक (9089661ए अब जेसी 594271 डब्ल्यू)	12 दिसम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 11 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप कुमार (9089154एम अब जेसी 594272वाई)	12 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तजार्त हुसैन (9089991वाई अब जेसी 594273एफ)	22 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अमीन (9094186वाई अब जेसी 594274के)	04 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तेज राम (9094425एच अब जेसी 594275 एम)	18 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मकसूद अहमद (9096068के अब जेसी 594276पी)	03 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 19 अक्टूबर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अब्दुल मजीद खान (9095414एच अब जेसी 594277एक्स)	13 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पूरन सिंह (9089793एन अब जेसी 594278ए)	04 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तरसेम सिंह (9094630के अब जेसी 594279एच)	04 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मनहोरी लाल (9096496एच अब जेसी 594280एक्स)	06 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गिरधारी लाल (9096436एन अब जेसी 594281ए)	13 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) जितेन्द्र कुमार (9096824एल अब जेसी 594282एच)	15 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद असलम खाम (9094537एच अब जेसी 594283एल)	06 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार राजा राम (9094772एफ अब जेसी 594284एन)	06 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बदर दीन (9089962के अब जेसी 594285डब्ल्यू)	06 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलदीप सिंह (9089346के अब जेसी 594286वाई)	25 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 12 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुभाश चन्द्र (9096456एफ अब जेसी 594287एफ)	08 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 15 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार विजय कुमार (9089375वाई अब जेसी 594288के)	23 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 22 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बलवान सिंह (9089161एच अब जेसी 594289एम)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बलजीत सिंह (9096619के अब जेसी 594290एफ)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 मार्च 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार हरविन्द्र सिंह (9095716पी अब जेसी 594291के)	06 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुरिन्द्र सिंह (9095723एल अब जेसी 594292एम)	10 मार्च 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार वीर सिंह (9096267एक्स अब जेसी 594240डब्ल्यू)	23 नवम्बर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार तरसेम पाल (9094792पी अब जेसी 594241वाई)	18 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहिंदर पाल शर्मा (9094421एम अब जेसी 594242एफ)	15 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बलदेव राज (9094676एम अब जेसी 594243के)	10 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मुजफर हुसैन (9089466एन अब जेसी 594244एम)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार उमर फारुक (9096269एच अब जेसी 594245पी)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अर्जुन कुमार (9089376एफ अब जेसी 594246एक्स)	11 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 07 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार कुलबीर सिंह (9089761एल अब जेसी 594247ए)	12 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 16 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (लिपिक) करार सिंह (9095910के अब जेसी 594248एच)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार केवल सिंह (9094364डब्ल्यू अब जेसी 594249एल)	22 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार ओमकार सिंह (9094419पी अब जेसी 594250ए)	22 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद नसीम (9094578एम अब जेसी 594251एच)	23 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार रैंक में 18 सितम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार लाल मोहम्मद खान (9094580के अब जेसी 594252एल)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 19 नवम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार विजय कुमार (9096438वाई अब जेसी 594253एन)	26 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 04 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	

हवलदार मोहम्मद सयीद (9096511एम अब जेसी 594254डब्ल्यू)	26 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 26 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद अकरम (9096279एम अब जेसी 594255वाई)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार नजीर अहमद भट्ट (9089345एफ अब जेसी 594256एफ)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गुलाम नवी वानी (9089602एन अब जेसी 594257के)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार सुभाश चंद्र (9089824एच अब जेसी 594258एम)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गणेश दास (9089886एच अब जेसी 594259पी)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहन लाल (9089887एल अब जेसी 594260क)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार दरशन सिंह (9089897पी अब जेसी 594261एम)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार अफताब अहमद (9096100एन अब जेसी 594262पी)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार पवन कुमार (9096473एफ अब जेसी 594263एक्स)	02 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार आजाद अहमद (9089984एच अब जेसी 594264ए)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार मोहम्मद रफीक (9089987डब्ल्यू अब जेसी 594265एच)	10 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार बशीर अहमद (9089580ए अब जेसी 594266एल)	11 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार जोगिंदर पाल (9094913एल अब जेसी 594267एन)	13 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार गुलाम नवी शेख (9094631एम अब जेसी 594268डब्ल्यू)	13 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 फरवरी 2013 से वरिष्ठता दी जाती है	
हवलदार (संगीतकार) रघुबीर राय (9095455एम अब जेसी 594269वाई)	26 फरवरी 2013
नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2012 से वरिष्ठता दी जाती है	

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी0 डी0 के रैंक में

हवलदार जोगिन्दर पाल (13755325 ए अब जेसी—581719 एम) 12 नवम्बर 2013*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी ।

हवलदार हेम राज (13753921 एन अब जेसी—581720 एफ) 01 अक्टूबर 2013

हवलदार दीले राम	(13754709 एच अब जेसी—581721 के)	13 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार जय पाल	(13755997 एम अब जेसी—581722 एम)	30 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार योग राज	(13754480 पी अब जेसी—581723 पी)	18 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार सत पाल	(13754526 एम अब जेसी—581724 एक्स)	14 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार केहर सिंह	(13754678 एन अब जेसी—581725 ए)	30 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार शमशेर सिंह	(13754616 एन जेसी—581726 एच)	02 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार राज कुमार	(13754685 के जेसी—581727 एल)	04 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार कशमीर सिंह	(13754954 एल जेसी—581728 एन)	04 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार राकेश कुमार	(13754955 एन जेसी—581729 डब्ल्यू)	06 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार इन्द्र सिंह	(13753926 एम जेसी—581730 एल)	11 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार अनिल कुमार	(13756340 एफ जेसी—581731 एन)	03 सितम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार प्रमोद सिंह	(13755991 एल जेसी—581732 डब्ल्यू)	03 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार जगदिप सिंह	(13753168 ए जेसी—581733 वाई)	18 सितम्बर 2013*
हवलदार उपदेश कुमार	(13753200 के जेसी—581734 एफ)	18 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार उधम सिंह	(13753314 पी जेसी—581735 के)	27 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		
हवलदार रोशन लाल	(13753923 वाई जेसी—581736 एम)	22 नवम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी ।		

हवलदार देश राज	(13754496 ए जेसी—581737 पी)	20 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार बलकार सिंह	(13754068 एफ जेसी—581738 एक्स)	26 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार रोमेश चन्द्र	(13754031 ए जेसी—581739 ए)	16 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार चरण दत्त	(13754840 ए जेसी—581740 पी)	16 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार देवेन्द्र सिंह कौशल	(13754553 डब्ल्यू जेसी—581741 एक्स)	02 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार दीप कुमार	(13754328 एफ जेसी—581742 ए)	01 जनवरी 2014
हवलदार हेमन्त कुमार	(13754504 एन जेसी—581743 एच	01 जनवरी 2014
हवलदार शशी पाल	(13754857 एन जेसी—581744 एल)	01 जनवरी 2014
हवलदार लखविन्दर सिंह	(13754404 एच जेसी—581745 एन	01 जनवरी 2014
हवलदार दलजीत सिंह	(13754854 ए जेसी—581746 डब्ल्यू)	01 जनवरी 2014
हवलदार विनोद कुमार	(13754896 एम जेसी—581747 वाई	01 जनवरी 2014
हवलदार सुखदेव सिंह	(13753556 एक्स जेसी—581748 एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार मनमोहन कुमार	(13754969 एन जेसी—581749 के	01 जनवरी 2014
हवलदार शाम सिंह, एस एम	(13756547 एफ जेसी—581750 वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार यश पाल	(13754661 ए जेसी—581751 एफ	01 जनवरी 2014
हवलदार प्रेम सिंह	(13754829 एफ जेसी—581752 के)	01 जनवरी 2014
हवलदार नन्द लाल	(13754960 वाई जेसी—581753 एम	01 जनवरी 2014
हवलदार रविन्द्र कुमार	(13754634 डब्ल्यू जेसी—581754 पी)	01 जनवरी 2014
हवलदार दिलिप राय	(13755564 पी जेसी—581755 एक्स)	01 जनवरी 2014
हवलदार नगीन चन्द	(13753691 एल जेसी—581756 एक्स)	20 जनवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार रोशन लाल	(13754684 एफ जेसी—581758 एल)	14 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार निर्मल सिंह मनहास	(13754638 एम जेसी—581759 एन)	07 जनवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार विजय कुमार	(13754845 वाई जेसी—581760 एच)	08 जनवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार रणबीर सिंह चिब	(13756318 डब्ल्यू जेसी—581761 एल)	23 जनवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरबेज	(13754776 एन जेसी—581762 एन)	21 जनवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		

हवलदार भीम बहादुर थापा	(13754421 एच जेसी-581763 डब्ल्यू)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कृष्ण कुमार	(13753270 एच जेसी-581764 वाई)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(1375(4070 वाई जेसी-581765 एफ)	13 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार दर्शन सिंह	(13754172 पी जेसी-581766 के)	01 फरवरी 2014
हवलदार विरेन्द्र कुमार	(13754058 एक्स जेसी-581767 एम)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कमल कुमार	(13754694 एल जेसी-581768 पी)	14 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार पूर्ण चन्द शर्मा	(13754520 एल जेसी-581769 एक्स)	01 फरवरी 2014
हवलदार राजेन्द्र सिंह	13618818 पी जेसी-581770 एम)	17 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राकेश कुमार	(13753561 एच जेसी-581771 पी)	01 फरवरी 2014
हवलदार ओंकार सिंह	(13754874 एन जेसी-581772 एक्स)	01 फरवरी 2014
हवलदार प्रकम चन्द	(13754238। ए जेसी-581773 ए)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार बलकार सिंह	(13754241ए जेसी-581774 एच)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सोहन लाल	(13753562 एल जेसी-581775 एल)	01 फरवरी 2014
हवलदार बिशन सिंह	(13754267 पी जेसी-581776 एम)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार स्लीम हुसैन	(13754720 एफ जेसी-581777 डब्ल्यू)	10 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार रच्छपाल सिंह	(13756415 एन जेसी-581778 वाई)	03 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राजेन्द्र सिंह हुडेन	(13756417 वाई जेसी-581779 एफ)	13 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार अरविन्द कुमार	(13754972 एन जेसी-581780 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
हवलदार अमर सिंह	(13754992 एफ जेसी-581781 वाई)	01 फरवरी 2014
हवलदार सिकंदर सिंह	(13754793 एन जेसी-581782 एफ)	01 फरवरी 2014
हवलदार विजय सिंह	(13754833 के जेसी-581783 के)	01 फरवरी 2014

हवलदार पूर्ण कुमार गुरुन्ग	(13755791 पी जेसी—581784 एम)	01 फरवरी 2014
हवलदार रविन्द्र कुमार	(13753741 एल जेसी—581785 पी)	19 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राम बहादुर खडका	(13755292 ए जेसी—581786 एक्स)	03 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार मोहन थापा	(13753648 के जेसी—581787 ए)	11 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सतदेव सिंह	(13753762 एफ जेसी—581788 एच)	03 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार हरदयाल सिंह	(13754918 ए जेसी—581789 एल)	01 मार्च 2014
हवलदार देहरु राम	(13755383 के जेसी—581790 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार गोपाल दास	(13755054 एन जेसी—581791 एच)	24 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार ओमकार सिंह	(13754815 एफ जेसी—581792 एल)	03 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार परवेज अहमद	(13755472 एच जेसी—581793 एन)	01 मार्च 2014
हवलदार बखशीश सिंह	(13753722 ए जेसी—581794 डब्ल्यू)	01 मार्च 2014
हवलदार जगतार सिंह	(13754014 ए जेसी—581795 वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार केवल कृष्ण	(13754677 एल जेसी—581796 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार राज कुमार	(13754345 एफ जेसी—581797 के)	01 मार्च 2014
हवलदार दलीप सिंह	(13754919 एच जेसी—581798 एम)	01 मार्च 2014
हवलदार बाबू राम	(13754427 के जेसी—581799 पी)	01 मार्च 2014
हवलदार मुहम्मद सादिख, एस सी	(13754936 एच जेसी—581800 वाई)	01 मार्च 2014
हवलदार रमेश लाल	(13754547 एच जेसी—581801 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार गोवर्धन राय	(13755912 एल जेसी—581802 के)	01 मार्च 2014
हवलदार सतीश कुमार	(13754977 एम जेसी—581803 एम)	14 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार जगत पाल पाठक	(13755187 के जेसी—581804 पी)	15 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार मुख्तार मुहम्मद	(13756286 वाई जेसी—581815 एफ)	03 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जरनैल सिंह	(13756900 एच जेसी—581816 के)	03 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राम प्रताप	(13756416 डब्ल्यू जेसी—581817 एम)	10 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गणेश राणा	(13753987 के जेसी—581818 पी)	02 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सन्जोक कुमार राय	(13756014 वाई जेसी—581819 एक्स)	01 फरवरी 2014

हवलदार कुलदीप सिंह	(13754539 के जेसी-581820 एम)	22 मार्च 2014*
हवलदार जगजित सिंह	(13755590 डब्ल्यू जेसी-581821 पी)	22 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राजीव कुमार राणा	(13755457 एन जेसी-581822 एक्स)	01 मार्च 2014
हवलदार अनिल कुमार	(13755313 एल जेसी-581823 ए)	01 मार्च 2014
हवलदार अनिल कुमार	(13754800 वाई जेसी-581824 एच)	31 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलदीप कुमार	(13756532 वाई जेसी-581825 एल)	22 मार्च 2014*
हवलदार सुरजीत सिंह	(13755954 एक्स जेसी-581826 एन)	22 मार्च 2014*
हवलदार मनमोहन सिंह	(4072514 एम जेसी-581827 डब्ल्यू)	22 मार्च 2014*
हवलदार हर्ष कुमार	(4072667 डब्ल्यू जेसी-581828 वाई)	22 मार्च 2014*
हवलदार अशोक कुमार	(4072229 एन जेसी-581829 एफ)	22 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार पवन कुमार	(13754722 एम जेसी-581830 डब्ल्यू)	08 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार नसीब सिंह	(4072765 डब्ल्यू जेसी-581831 वाई)	22 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार मोहिन्दर सिंह	(13754878 के जेसी-581832 एफ)	01 मार्च 2014
हवलदार वजीर सिंह	(13754329 के जेसी-581833 के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार बीरबल राम	(4361296 एक्स जेसी-581834 एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार विजय सिंह	(13754395 एम जेसी-581835 पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार दिलेर बहदूर सिंह	(13754(407 डब्ल्यू जेसी-581836 एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार रतन लाल शर्मा	(13754879 एम जेसी-581837 ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार सुरेन्द्र सिंह सैनी	(13754789 एल जेसी-581838 एच)	01 जनवरी 2014*
हवलदार जगदीश सिंह	(13753763 के जेसी-581839 एल)	19 अप्रैल 2014'
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गुलशन सिंह	(13754546 ए जेसी-581840 ए)	25 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार धनी राम	(13754154 एम जेसी-581841 एच)	19 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार महेन्द्र सिंह	(13755080 पी जेसी-581842 एल)	27 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सुरजित सिंह	(13755086 डब्ल्यू जेसी-581843 एन)	27 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		

हवलदार राजेंद्र सिंह	(13754410 डब्ल्यू जेसी-581844 डब्ल्यू)	28 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राजेंद्र सिंह राणा	(13755532 एम जेसी-581845 वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार कुशल सिंह	(13757787 एल जेसी-581846 एफ)	01 अप्रैल 2014
हवलदार शाम लाल	(13754796 एफ जेसी-581847 के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार शफीक अहमद	(2684031 एम जेसी-581848 एम)	20 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राम पाल शर्मा	(13755656 एफ जेसी-581849 पी)	01 मई 2014
हवलदार तरुण पाल	(13755682 एच जेसी-581850 के)	01 मई 2014
हवलदार लाभ सिंह	(13754534 एल जेसी-581851 एम)	20 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार भूप सिंह	(13755738 के जेसी-581852 पी)	01 मई 2014
हवलदार गोपाल दास	(13756000 वाई जेसी-581853 एक्स)	01 मई 2014
हवलदार कृष्ण कुमार	(13754459 एम जेसी-581854 ए)	01 मई 2014
हवलदार बेली राज ठाकुर	(13754536 डब्ल्यू जेसी-581855 ए)च	06 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार मोहिन्द्र सिंह	(13755093 एम जेसी-5818556 एल)	05 मई 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलदीप सिंह	(13756584 पी जेसी-581857 एन)	01 मई 2014
हवलदार अजय सुब्बा, एस एम	(13755792 एक्स जेसी-581858 डब्ल्यू)	05 मई 2014
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार नीम दोर्जे तमन्ग	(13755915 वाई जेसी-581859 वाई)	05 मई 2014
नायब सूबेदार लिपिक एस0 डी0 के रैंक में		
हवलदार लिपिक रमन चन्द	(13752216 एच अब जेसी-581663 एच)	01 अगस्त 2013
हवलदार लिपिक उमेश कुमार	(3991024 एन अब जेसी-581664 एन)	01 अगस्त 2013
हवलदार लिपिक चिन्तला तिरुपती राव	(13754883 पी अब जेसी-581665 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013
हवलदार लिपिक सत्य प्रकाश	(13754567 डब्ल्यू अब जेसी-581666 वाई)	01 अगस्त 2013
हवलदार लिपिक लेख पाल	(13754317 एन अब जेसी-581716 वाई)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार लिपिक इकरार मुहम्मद	(13754566 एन अब जेसी-581717 एफ)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार लिपिक निर्मल सिंह	(13755446 एफ अब जेसी-581718 के)	02 दिसम्बर 2013*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक कुलदीप सिंह	(13755805 के अब जेसी-581757 एच)	03 फरवरी 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक महेन्द्र कुमार पी एम	(13755882 वाई अब जेसी-581805 एक्स)	06 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक सुरेन्द्र लाल कर्ण	(13756090 एल अब जेसी-581806 ए)	01 मार्च 2014

हवलदार लिपिक अशोक कुमार	(13756174 वाई अब जेसी—581809 एन)	23 मार्च 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक एन जी नोगदम्बा सिंघा	(13756015 एफ अब जेसी—581807 एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार लिपिक राज कुमार	(13755226 एक्स अब जेसी—581808 एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार लिपिक सुसेन दास	(13755084 एल अब जेसी—581810 एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार लिपिक ज्ञानेश कुमार सिंह	(3991143 के अब जेसी—581811 एल)	10 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक कुलदीप कुमार	(13755730 एक्स अब जेसी—581812 एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार लिपिक तपस कुमार बिश्वास	(3991097 ए अब जेसी—581813 डब्ल्यू)	07 अप्रैल 2014*
*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार लिपिक एम अनन्त	(13756195 पी अब जेसी—581814 वाई)	01 अप्रैल 2014*

वी एन रवीन्द्रन
अवर सचिव

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

I-227, दिनांक 18 सितम्बर 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं -

श्री अम्बिका प्रसाद घोष को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 %पूर्वाह्न% से पै बैंड 3 में रू 15,600—39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू 7600 पर।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं -

क्रम सं.	नाम	पद	स्था/प्रयो०	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पे बैंड तथा ग्रेड पे
01	श्री डी डी डीगवाल	प्रशासनिक अधिकारी	जे सी बी, दिल्ली	05.05.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
02	श्री एस सी गुप्ता	प्रशासनिक अधिकारी	जे सी बी, दिल्ली	05.05.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600
03	श्री एस एन मशलकर	प्रशासनिक अधिकारी	एआरडीई, पुणे	13.06.2014	पीबी 2 ग्रेड पे 4600

राजीव रंजन सिन्हा
उप निदेशक(कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th October 2014

ARMY BRANCH

No. 221, dated 15th September 2014—The President is pleased to make the following appointments on his personal staff with effect from 01st Jul 2014(FN): -

To be Honorary Surgeon

- (a) Lt Gen BK Chopra, AVSM, DGHS (AF)
(MR-04133N)

Yash Pande
Maj Gen
Addl DGAFMS (HR)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 222, dated 15th September 2014—The President is pleased to make the following appointment :-

Sh. Suresh Palakurthi to be Dy Chief Construction Engineer, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 20 Aug 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay Rs 7600/-.

Rajeev Ranjan Sinha
Dy Director(Pers)

ARMY BRANCH

No. 223, dated 16th September 2014—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR

- | | | | |
|----|--------------------------|--------------|-------------|
| 1. | Sub Maj Bal Ram Shrestha | (JC-826204L) | 01 Feb 2014 |
| 2. | Sub Maj Naresh Singh | (JC-826210Y) | 01 Mar 2014 |

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR

1.	Sub	Birendra Singh	(JC-826236N)	01 Sep 2013
2.	Sub	Jaya Prakash VP	(JC-826237W)	03 Sep 2013/01 Sep 2013*
3.	Sub	Arjun Singh	(JC-826239F)	01 Nov 2013
4.	Sub	Ganjare Vinod Manik Rao	(JC-826240W)	01 Dec 2013
5.	Sub	Yempada Nageshwara Rao	(JC-826241Y)	03 Dec 2013/01 Dec 2013*
6.	Sub	Roshan Lal Thakur	(JC-826242F)	01 Feb 2014
7.	Sub	Chander Parkash	(JC-826244M)	01 Mar 2014
8.	Sub	B Karuna Karan	(JC-826245P)	01 Mar 2014
9.	Sub	Arun Kumar	(JC-826246X)	01 May 2014
10.	Sub	Dayal Singh	(JC-826247A)	01 Jun 2014
11.	Sub	Davinder Singh	(JC-826248H)	01 Jun 2014
12.	Sub	Jogender Singh	(JC-826251H)	01 Jul 2014

*Date of Seniority

TO BE NAIB SUBEDAR

(a)	BHM	CB Thapa	No 5847597P	(Now JC-826284N)	08 Jul 2013/01 Jul 2013*
(b)	BHM	Naresh Kumar	No 2484209N	(Now JC-826285W)	07 Aug 2013/01 Aug 2013*
(c)	BHM	Rajbir Singh	No 15375654W	(Now JC-826286Y)	01 Aug 2013
(d)	BHM	N Srinivasan	No 2595934P	(Now JC-826287F)	03 Aug 2013/01 Aug 2013*
(e)	BHM	Gurmit Singh	No 3392663K	(Now JC-826288K)	02 Sep 2013/01 Sep 2013*
(f)	BHM	Surender Singh	No 3186504M	(Now JC-826289M)	02 Sep 2013/01 Sep 2013*
(g)	BHM	Nanak Chand	No 2484409K	(Now JC-826290F)	04 Nov 2013/01 Nov 2013*
(h)	BHM	Sanjeev Kumar	No 13756620P	(Now JC-826291K)	05 Dec 2013/01 Dec 2013*
(j)	BHM	M Balamurugan	No 3992060L	(Now JC-826292M)	01 Dec 2013
(k)	BHM	N Neethimozhi	No 15308695N	(Now JC-826293P)	01 Feb 2014
(l)	BHM	Ajay Kumar	No 3992213K	(Now JC-826294X)	03 Mar 2014/01 Mar 2014*
(m)	BHM	Rama Rao NP	No 13620046F	(Now JC-826295A)	01 Mar 2014
(n)	BHM	Gurdev Singh	No 3393027H	(Now JC-826296H)	01 Mar 2014
(o)	BHM	Sisale Himmat Balasaheb	No 2788831X	(Now JC-826297L)	01 May 2014
(p)	BHM	Kewal Singh	No 2685889P	(Now JC-826298N)	01 Jun 2014
(q)	BHM	Yumnam Basanta Singh	No 4363090Y	(Now JC-826299W)	01 Jun 2014
(r)	BHM	Sunder Singh	No 15462569K	(Now JC-826300A)	01 Jul 2014

*Date of Seniority

ALKA JOSHI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 224, dated 16th September 2014—The President is pleased to make the following promotion.

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR

SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	UPENDRA KUMAR	JC725136F	01 MAR 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	BHIM SHANKER SHARMA	JC724998N	01 MAR 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	JASVIR SINGH	JC725015A	01 MAY 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	SANAPALA ANANDA RAO	JC725077A	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	CHANDRA KALNT AWASTHI	JC725080A	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	GIRISH CHAND SHAHI	JC725880Y	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	VINOD KUMAR	JC725851K	01 JUL 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	ARVIND KUMAR UPADHYAY	JC725881F	01 JUL 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	ASUTOSH SAHA	JC725889N	01 AUG 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	UNNI KRISHNAN C	JC725892N	01 AUG 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	DEBABRATA DEB	JC725918X	01 AUG 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MULALI DHARAN K	JC725930Y	01 SEP 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	BISHNU MAHTO	JC726263H	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	KAMAL SINGH	JC726287M	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	CHANDI PRASAD	JC726393L	01 NOV 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	AJOY NANDI	JC726322K	01 DEC 2013

SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MOHAMMAD GHAFIR KHAN	JC726383F	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	PK NAZHAR	JC726369P	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	RAM KISHAN	JC724854L	01 JAN 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	KISHORE KUMAR PRADHAN	JC724932X	01 JAN 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	SONE SINGH	JC725093X	01 FEB 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	SURINDER SINGH GILL	JC725133N	01 FEB 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	A BHARAT RADHAKISAN	JC725150N	01 FEB 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SURINDER PAL	JC725221K	01 FEB 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SUBHASH CHAND	JC725211A	01 MAR 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SRISH KUMAR MALAVIYA	JC725213L	01 APR 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	AB GANI KUMAR	JC725356L	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	ASHOK KUMAR	JC725646H	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	RAM SEWAK PAL	JC725653Y	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	BHOORE SINGH	JC725661X	01 SEP 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	GOPI RAM	JC725688P	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	GOPAL SINGH RATHORE	JC725689X	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	AMBALAL JANGID	JC725792H	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	PARBAT SINGH SISODIYA	JC725756X	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	BRIJ MOHAN	JC725858N	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	SKT ENGR	BABU SINGH	JC725773X	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	DVR SPL	MAHIPAL SINGH	JC727216X	01 APR 2013
SUBEDAR MAJOR	DVR MT	SATWINDER SINGH	JC727632F	01 MAY 2013
SUBEDAR MAJOR	SHGD	GURBACHAN SINGH	JC727475A	01 APR 2013
SUBEDAR MAJOR	SHGD	RATNA KANTA RABHA	JC727525A	01 APR 2013
SUBEDAR MAJOR	SHGD	MANAKRAM	JC727641H	01 JUN 2013
SUBEDAR MAJOR	SHGD	RAGHBIR SINGH	JC727646F	01 OCT 2013
SUBEDAR MAJOR	SHGD	M GUNA SEKARAN	JC727678K	01 DEC 2013
SUBEDAR MAJOR	SP STAFF (ER)	KARUNAKARAN PV	JC727030N	01 MAY 2013
SUBEDAR MAJOR	PTR&DECTR	HARI SHANKAR	JC727972K	01 MAY 2013
SUBEDAR MAJOR	ARTISAN(WW)	VIKRAM SINGH	JC728426K	01 OCT 2013

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR

SUBEDAR	AMN TECH	KOLI SATAYAPPA DUNDAPPA	JC727529W	01 JAN 2013
SUBEDAR	AMN TECH	S DEVENDIRAN	JC727530L	01 MAR 2013
SUBEDAR	AMN TECH	KODETI NARASIMHA RAO	JC727579F	01 MAR 2013
SUBEDAR	AMN TECH	KATRU VENKATA SIVAJI	JC727580W	01 MAR 2013
SUBEDAR	AMN TECH	MURTHY S	JC727597K	01 MAR 2013
SUBEDAR	AMN TECH	MAHIMA SHANKAR MISHRA	JC727599P	01 MAY 2013
SUBEDAR	AMN TECH	BABU LAL NAIK	JC727623A	01 MAY 2013
SUBEDAR	AMN TECH	BALBIR SINGH	JC727596F	01 JUN 2013
SUBEDAR	AMN TECH	VIJAY KUMAR	JC727683P	01 JUL 2013
SUBEDAR	AMN TECH	AMAL KUMAR MANNA	JC727684X	01 OCT 2013

SUBEDAR	AMN TECH	PRASANTA KUMAR MISHRA	JC727601F	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	NAGENDRA MISHRA	JC727650K	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	GIRRAJ PRASAD SHARMA	JC727774Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	KAILASH CHANDER JOSHI	JC727707N	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	NITYANAND MISHRA	JC727705H	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	SURAT SINGH	JC728150Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	DHEPLE RAMA MANJALI	JC727708W	01 NOV 2013
SUBEDAR	AMN TECH	AMBARISH PANDEY	JC727709Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	AMN TECH	PRAMOD KUMAR SINGH	JC727820H	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	YASHPAUL SINGH	JC728058A	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SURENDRA PAL	JC728227W	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	R GANESHAN	JC728475M	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	HARI NARAYAN SINGH	JC728527X	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SANJAY KUMAR SINGH	JC728528A	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SANANTA KUMAR	JC728529H	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	NEEM CHAND	JC728530X	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	YOGENDRA TIWARI	JC728531A	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	MEWA LAL	JC728532H	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	HARI RAM	JC728533L	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	VILASH CHANDRA PATIL	JC728534N	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SUPEKAR RAMCHANDRA PANDITRAO	JC728535W	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	TAMBOLI KARIM SAHIB GULAB	JC728589X	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BALJEET SINGH	JC728536Y	01 JAN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MUNNI LAL	JC728591P	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	HARI KUMAR G	JC728592X	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	CHANDIRA SHEKAR TRIPATHI	JC728538K	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SUNIL KUMAR TRIPATHY	JC728539M	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	HARIBHAN SINGH	JC728541K	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	PATIL PRAKASH MAHADEV	JC728636K	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM PRAVESH SINGH	JC728594H	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SAKHARE ANIL BHAGWAT	JC728543P	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	KULKARANI SANJAY RAMCHANDRA	JC728544X	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	MUJAVAR NABILAL VAJIR	JC728545A	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DHANWAI MUKUNDA BHAV RAO	JC728596N	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BHOMBE UTTAM BHAGWAN RAO	JC728597W	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM PRAKASH SHARMA	JC728598Y	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NARESH KUMAR TOMAR	JC728599F	01 FEB 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SAT PARKASH	JC728600L	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DILIP KUMAR SINGHA	JC728601N	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KURIAN NV	JC728602W	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJESH KUMAR SINGH	JC728603Y	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JITENDRA KUMAR	JC728605K	01 MAR 2013

SUBEDAR	CLK (IM)	MITHLESH KUMAR GAUTAM	JC728606M	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJESH KUMAR SHUKLA	JC728607P	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KADAM ARJUN BHIMA RAO	JC728676L	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ASHOK KUMAR	JC728677N	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	IDAN RAM	JC728638P	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SHARWAN LAL MEENA	JC728639X	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JEEV RAJ DEORA	JC728640M	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KHAWALE DADA GANPAT	JC728641P	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SHIW LOCHAN RAM	JC728736P	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RABINDRA NATH TAGORE	JC728642X	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SUMAN PATHAK	JC728643A	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SATYENDRA KUMAR	JC728645L	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MUNESHWAR PRASAD	JC728644H	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM NIWAS SHARMA	JC728647W	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KAMALA KANJ TIWARY	JC728648Y	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	VIJAY KUMAR	JC728649F	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SUNIL KUMAR BHATIA	JC728650W	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	M PANDI RAJ	JC728679Y	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	JAI SINGH	JC728651Y	01 MAR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	RAM PAL SINGH	JC728652F	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	IYER B SITARAMAN	JC728653K	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MUKUNDA PRASAD NAYAK	JC728680N	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DIBYENDU DATTA	JC728682Y	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NIRAKARA SAHU	JC728683F	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SAGIRUDDIN AZAD	JC728684K	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ARUN KUMAR DAS	JC728685M	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	RAMESH BABU LN	JC728686P	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BHUPENDRA SINGH THAKUR	JC728687X	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	ANJANI KUMAR PATEL	JC728688A	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	G MARI MUTHU	JC728689H	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SUBHAS CHANDRA MONDAL	JC728691A	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DILIP KOLE	JC728692H	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RATNESWAR DAS	JC728693L	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	AMRESH KUMAR CHATURVEDI	JC728694N	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHA SUKH	JC728695W	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DASRATH PRASAD	JC728696Y	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RANJAN KUMAR DAS	JC728697F	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PRABHAT SARMAH	JC729050A	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BALJIT	JC728698K	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SAMEY SINGH	JC728738A	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	RAJVIR	JC728739H	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BABU RAM	JC728741A	01 APR 2013

SUBEDAR	CLK (SD)	ROOP LAL	JC728699M	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	M BOOPALAN	JC728742H	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NEELAMEGAM P	JC728744N	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMA MURTHY S	JC728745W	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	R MADHU	JC729041Y	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ELANGOVAN B	JC728918H	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	G MOORTHY	JC728747P	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PATIL NIWAS RAO BABU RAO	JC728919L	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	CHITARI BHIMAPA KALLAPA	JC728749M	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	R NARASIMMON	JC728750F	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHIPAL SINGH MEHATA	JC728879L	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ARVIND KUMAR	JC728751K	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	P GURUMATHAN	JC728792N	01 APR 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	MERUPULA JAGANNADHAM NAIDU	JC728752M	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MOHAMMAD ZAKIR HUSSAIN	JC728794Y	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMDHIR SINGH	JC728795F	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KAJAL DEB	JC728796K	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BYAS KUMAR	JC728797M	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	AJOY KUMAR NATH	JC728753P	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SHAJI KUMAR M	JC728798P	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMA CHIVATEKAR	JC728754X	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAVEENDRAN NAIR VR	JC728799X	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	HRIDEVA PANICKER G	JC728755A	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	LAL DEO	JC728800F	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM BABU MAHTO	JC728756H	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SUSHIL JHA	JC728801K	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DOMDU D SOUZA	JC728757L	01 MAY 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BHANWAR SINGH NATHAWAT	JC728802M	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ANIL KUMAR JOSHI	JC728803P	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KAILASH CHAND SHARMA	JC728804X	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MOOL CHAND JAT	JC728805A	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	GORDHAN GUJAR	JC728806H	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MULEMALLI NATH SHANKAR RAO	JC728808N	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ROTHER BHASKAR DAGDU	JC728809W	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	T TRIMBAK MARUTI	JC728810L	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM PRAKASH SINGH TOMAR	JC728812W	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NARENDRA SINGH TOMAR	JC728813Y	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	GANGA RAM DANDOTIYA	JC728846K	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KADAM BHARAT MARUTI	JC728847M	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	HARUGADE KRISHNADEO NAMADEO	JC728814F	01 JUN 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JAYA KUMAR G	JC728283P	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	HETRAM SUTHAR	JC728758N	01 JUL 2013

SUBEDAR	CLK (SD)	JAI SINGH	JC728815K	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	TARA SINGH	JC728816M	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SARAT CHANDRA SAHOO	JC728817P	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BALA MUKUNDA PATTANAYAK	JC728818X	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SYAMAL GHOSH	JC728819A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NARAYAN CHANDRA BISWAS	JC728820P	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ARMAN ALI	JC728821X	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMAMURAT SAH	JC728822A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	JOHN VC	JC728848P	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	DINESH KUMAR TRIPATHI	JC728849X	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	JADUMANI MANDAL	JC728884A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	PRODIP KUMAR DAS	JC728885H	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	ARUN KISHOR ROULA	JC728851P	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PRADIPTA KUMAR SWAIN	JC728852X	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	GOPI NATH BEHERA	JC728853A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JATINDRA BEHERA	JC728854H	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	GAJENDRA TIWARI	JC728856N	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MD ABDUL JABBER MUJUMDAR	JC728857W	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BALI RAM KARMKAR	JC728858Y	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KHEJMAT ALI SHAIKH	JC728859F	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	GOPI NATH PANDA	JC728860W	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MOHITOSH SARKAR	JC728861Y	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BABULA DALAI	JC728862F	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SATYA NARAYAN SINGH	JC728863K	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	MAKHAN SINGH	JC728920A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MUNNA LAL	JC728866X	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	HARISH CHANDRA	JC728867A	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ANIL KUMAR	JC728887N	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJ KUMAR SINGH	JC728888W	01 JUL 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	VIKRAM SINGH	JC728928M	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SHIV SHANKAR YADAV	JC728929P	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SADANAND SINGH YADAWA	JC728961K	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	RAM CHANDRA GUPTA	JC728962M	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ARJUN SINGH	JC728963P	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	YOGENDRA KUMAR	JC728979A	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MADAN CHAND	JC728980P	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JAY PRAKASH SHARMA	JC728981X	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BIJENDRA SINGH	JC728982A	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SHIV DUTT SINGH	JC728983H	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	DILDAR SINGH	JC728984L	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RUNBIR SINGH	JC728985N	01 AUG 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM NARESH	JC728986W	01 SEP 2013

SUBEDAR	CLK (IM)	KAMAL KISHOR	JC728987Y	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SUMAN KUMAR	JC728988F	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BEESETTI KASI VISWANANDDAM	JC728989K	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHAMAD DADA MIYA	JC728992K	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	S RAVI CHANDRAN	JC729031P	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	CHANDRAKANT RAMACHANDRAN MORE	JC728993M	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RANJEET SINGH	JC729051H	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	BAHADUR SINGH	JC729042F	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHESH CHANDRA	JC729052L	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	C NICOLAS	JC729053N	01 SEP 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAVINDRA SINGH BISHT	JC729084N	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	KANTA PRASAD	JC729054W	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	L MOHAMED MALICK	JC729055Y	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SURENDRA SINGH	JC729113X	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SANKAR KUMAR SAHU	JC729033A	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PUSHP PRATAP SINGH	JC729056F	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	INDERJEET SHARMA	JC729043K	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	DAYARAM SINGH YADAV	JC729086Y	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJ NARAIN SINGH	JC729087F	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHINDER SINGH	JC729057K	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	FAYZUL HOQUE LASKAR	JC729058M	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	GOBINDA CHANDRA PATEL	JC729059P	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	UPENDRA KUMAR SINGH	JC729114A	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJESH KUMAR	JC729060K	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	NISIT KUMAR RAM	JC729062P	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	KAMAL KUMAR GHOSH	JC729497X	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM PAL	JC729063X	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PRAMOD KUMAR CHOUDHARY	JC729064A	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	UPAMAYU KUMAR	JC729065H	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SATISH KUMAR SINGH	JC729089M	01 OCT 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	AYOOB KHAN	JC729090F	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	NAGENDRA BIJULI	JC729117N	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JAI PAL	JC729091K	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NAIB SINGH	JC729092M	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	TAPAS KUMAR DAS	JC729093P	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SHYAMAL PODDAR	JC729094X	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	NAGESWARA RAO MOYYI	JC729118W	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	RADHAY SHYAM SHARMA	JC729119Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KUMARAPU VENKATA RAMANA	JC729121W	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	RENGANATHAN K	JC729122Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SANAPATHI VENKATA RAO	JC729096H	01 NOV 2013

SUBEDAR	CLK (IM)	MANENDER SINGH	JC729123F	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	JASWANT SINGH BHATIA	JC729124K	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SHIV SAGAR GUPTA	JC729126P	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JANARDAN PRASAD BHARTI	JC729097L	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	PRASANNA KUMAR SAHA	JC729144X	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	PRABHAKAR SINGH	JC729145A	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	KRISHN KUMAR SINGH	JC729146H	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BENNY CK	JC729148N	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SUNIL KUMAR PATRA	JC729149W	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SADHAN KUMAR CHATTERJEE	JC729150L	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	DILIP KUMAR SINGH	JC729152W	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	MALINDRA NATH RAY	JC729153Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JAMADADE SANJAY PANDURANG	JC729154F	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PATIL VILAS BABU RAO	JC729155K	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	KADAM BALU RAM RAO	JC729156M	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	AP KUMAR BALAKRISHNA	JC729157P	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	JADHAV KAILASH MADHAV RAO	JC729158X	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	KURHADED DNYANESHWAR DHONDI	JC729159A	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BHADRESWAR DEKA	JC729160P	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	SHINDE JOTIRAM NAMADEV	JC729181L	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	SURENDRA SINGH DOOT	JC729182N	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (SD)	BINOD PRASAD SAH	JC729183W	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	PRASANTA PATRA	JC729184Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ALOK KUMAR DEY	JC729185F	01 DEC 2013
SUBEDAR	CLK (IM)	ASFAR KAMIL	JC729186K	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	PANCHAPPA SHIVASHRAN	JC727783A	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	MD RIYAZUL HAQUE	JC727735A	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	NAGENDRA KUMAR DUBEY	JC727736H	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	BEG RAJ	JC727784H	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	PURAN CHHETRI	JC728156A	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT MT	DHIRENDRA KUMAR DWIVEDI	JC727737L	01 JAN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	CHUNNILAL	JC727738N	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	KRISHNA CHANDRA BEHERA	JC727785L	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	SUDARSAN SAHU	JC727786N	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	KUSHALA RAM	JC728435L	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	PRAHALAD SWAMI	JC727844M	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	DURGA RAM GHASWAN	JC727757Y	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT AMN	BIJAY KUMAR	JC727805N	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	BHAWESH THAKUR	JC727807Y	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	BISWA NATH PADHY	JC727808F	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	JEEWAN RAM NAWAD	JC727758F	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	DINA BANDHU CHOWDHARY	JC727760Y	01 FEB 2013

SUBEDAR	SKT GS&C	SHAKIL KHAN	JC727739W	01 FEB 2013
SUBEDAR	SKT WEP	UMA SHANKAR	JC727949W	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	MADHAB CHANDRA ROY	JC727897L	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	MAHENDRA SINGH YADAW	JC727898N	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	VIDYA SAGAR	JC727950L	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	S JOSEPH	JC728014H	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	BIRENDER SINGH	JC727899W	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	SUBASH CHANDRA PANDEY	JC727900A	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT MT	HARI NAM SINGH	JC728015L	01 MAR 2013
SUBEDAR	SKT AMN	VIR SINGH	JC728200Y	01 APR 2013
SUBEDAR	SKT MT	SURYA BHAN SINGH CHAUHAN	JC728197K	01 APR 2013
SUBEDAR	SKT AMN	SURESH KUMAR	JC728202K	01 APR 2013
SUBEDAR	SKT MT	SATISH KUMAR	JC728248M	01 APR 2013
SUBEDAR	SKT MT	RANJEET SINGH	JC728250K	01 APR 2013
SUBEDAR	SKT MT	MANVIR SINGH	JC728299A	01 MAY 2013
SUBEDAR	SKT MT	SURESH KUMAR	JC728300K	01 MAY 2013
SUBEDAR	SKT MT	BALBIR SINGH	JC728251M	01 MAY 2013
SUBEDAR	SKT MT	KARAMVIR SINGH	JC728301M	01 MAY 2013
SUBEDAR	SKT MT	SHIV KANT AWASTHI	JC728252P	01 MAY 2013
SUBEDAR	SKT MT	B VIJAYA SRINIWAS	JC728304A	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT MT	R SHIVA SHANKARAN	JC728305H	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT SIG	RADHAKRISHNAN G	JC728306L	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT SIG	ISHWAR SINGH	JC728307N	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT SIG	KRISHAN KUMAR	JC728308W	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	GHASIRAM SOLANKI	JC728309Y	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	VISHWANATHA M	JC728313F	01 JUN 2013
SUBEDAR	SKT SIG	ROHTASH	JC728310N	01 JUL 2013
SUBEDAR	SKT SIG	VRM PATNAIK AMPALAM	JC728312Y	01 JUL 2013
SUBEDAR	SKT SIG	JAGDISH CHAND	JC728314K	01 JUL 2013
SUBEDAR	SKT SIG	HRUDANANDA DASH	JC728315M	01 JUL 2013
SUBEDAR	SKT SIG	LAXMIDHAR SAHOO	JC728440W	01 JUL 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	DEBENDRA NATH PALEI	JC728369N	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	CHANDRA MANI SETHI	JC728370H	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT SIG	MOHAN KUMAR AK	JC728441Y	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT SIG	BABU PILLAI V	JC728442F	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT SIG	PRAKASH CHANDRA NAHAK	JC728371L	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	SATYA NARAYAN KAR	JC728372N	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT SIG	SUDEB KUMAR SAMANTA	JC728373W	01 AUG 2013
SUBEDAR	SKT AMN	MADHU G	JC728379X	01 SEP 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	ASHOK KUMAR	JC728381P	01 SEP 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	RAKESH SINGH SHISHODIA	JC728382X	01 SEP 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	RAM NIWAS	JC728489M	01 OCT 2013

SUBEDAR	SKT ENGR	RADHA KRISHNAN G	JC728490F	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	HEM CHAND	JC728491K	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	SURENDRA SINGH	JC728492M	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	ASHOK KUMAR SHARMA	JC728493P	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	KAMAL KUMAR KOUSIK	JC728654M	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	KRISHAN KUMAR	JC728554F	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	VIRENDERPAL SINGH	JC728610P	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT MT	SATISH P KADNI	JC728555K	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	R ARAVAMUDHAN	JC728556M	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	MRIDUL CHANDRA BORAH	JC728557P	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	SHAMBHU SHARAN PRASAD	JC728616W	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	HAKIM SINGH	JC728617Y	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT MT	YOGESH CHAND	JC728618F	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	GAYAR SING	JC728700W	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	MATHEW TV	JC728662L	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	PUTTU LAL	JC728664W	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	RAM BRIKSH	JC728701Y	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	SANJAY KUMAR MISHRA	JC728665Y	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	NANAK SINGH	JC728666F	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT AMN	SUBACHAN	JC728703K	01 OCT 2013
SUBEDAR	SKT SIG	NARENDER SINGH	JC728710A	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	KARAM CHAND	JC728711H	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT SIG	PRAKASH	JC728712	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT SIG	LAXMI SINGH	JC728713N	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	KISHAN SINGH RAUTHELA	JC728714W	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT AMN	MAHESHWAR PRASAD CHAMOLI	JC728715Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	GARIKI KRISHNA RAO	JC728716F	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	TEMBURU LAKSHMI NARAYAN	JC728719P	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	GYANENDRA KUMAR MISRA	JC728760Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	YVS NARAYANA	JC728720K	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	FAROOQ HASAN	JC728761N	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT WEP	PAWAR DATTA NARAYAN	JC728762W	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT WEP	NAGAR GOJE DATTATRA LIMBAJI	JC728767P	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT WEP	KURAKULA DHARMA RAO	JC728768X	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT WEP	SRINIVASA RAO VODOORI	JC728769A	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT MT	NARHARE DNYANBA SOPANRAO	JC728771X	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT MT	SALUNKHE SAMBHAJI NARAYAN	JC728772A	01 NOV 2013
SUBEDAR	SKT MT	SHIVENDER SINGH KUSHWAH	JC728773H	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT MT	DEV NARENDRA GANESH RAO	JC728774L	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT MT	UMA SHANKAR OJHA	JC728775N	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT MT	RANDHIR SINGH	JC728776W	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT WEP	LALTA PRASAD MISHRA	JC728825N	01 DEC 2013

SUBEDAR	SKT WEP	SARGAR ARJUN RAMU	JC728827Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT WEP	ONKAR CHAND	JC728826W	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT WEP	MOHITE ASHOK NAMDEO	JC728779K	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	P SWAMI NATHAN	JC728780Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	SK FARUK JAMAL	JC728781F	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT ENGR	PRANAB KUMAR HATI	JC728828F	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	NILE DAGADU GANPATI	JC728868H	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	RANADIVE GORAK NARAYAN	JC728869L	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	BEL BHANDARE BABURAO MALAKA	JC728830Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT AMN	GONDAVALE VISHNU SHANKAR	JC728870A	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT AMN	SUGHAR SINGH	JC728831F	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	GOBIND DAS JHA	JC728832K	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	PRADEEP KUMAR	JC728833M	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	PRASANTA NATH	JC728834P	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT GS&C	MURALI SINHA	JC728835X	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	SATISH KUMAR	JC728836A	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT AMN	SHAMBU NATH VERMA	JC728838L	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	BHAGWATI PRASAD SHARMA	JC728839N	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	GOPAL CH DAS	JC728840H	01 DEC 2013
SUBEDAR	SKT SIG	VIDHYA PRABHAKAR K	JC728841	01 DEC 2013
SUBEDAR	DVR SPL	NARENDRA BAHADUR SINGH	JC728259Y	01 APR 2013
SUBEDAR	DVR SPL	KARAN SINGH	JC728159N	01 APR 2013
SUBEDAR	DVR MT	SRIKANTA SAHOO	JC728256L	01 APR 2013
SUBEDAR	DVR MT	REWANTA BAHADUR RANA	JC728206A	01 MAY 2013
SUBEDAR	DVR MT	KISHOR UPAS RAO LUTE	JC728258W	01 JUN 2013
SUBEDAR	DVR MT	TABKAL RAY	JC729078A	01 JUN 2013
SUBEDAR	DVR MT	RAM CHANDRA DOOT	JC728414P	01 JUN 2013
SUBEDAR	DVR MT	OM PRAKASH	JC728415X	01 JUN 2013
SUBEDAR	DVR MT	ASHOK KUMAR	JC728416A	01 JUL 2013
SUBEDAR	DVR MT	HANUMAN RAM KALA	JC729131A	01 JUL 2013
SUBEDAR	DVR MT	UMED SINGH	JC728417H	01 JUL 2013
SUBEDAR	DVR MT	RABI SHANKAR MISHRA	JC728560P	01 AUG 2013
SUBEDAR	DVR MT	YOGENDER KUMAR SHARMA	JC728623M	01 AUG 2013
SUBEDAR	DVR MT	DHOOM SINGH	JC729106F	01 AUG 2013
SUBEDAR	DVR MT	RAM CHANDER	JC729132H	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	MAHESH KUMAR	JC729204F	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	V JAGAN MOHAN RAO	JC729205K	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	TARUN KANTI DAS	JC729206M	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	RAMANAND SINGH	JC729278W	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	SUKH RAM	JC729279Y	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	KRISHNADEO SAH	JC729176A	01 SEP 2013
SUBEDAR	DVR MT	RATAN SINGH	JC729292H	01 OCT 2013

SUBEDAR	DVR MT	RAGHW THAKUR	JC729397M	01 NOV 2013
SUBEDAR	DVR MT	SIYA SHARAN PRASAD	JC729293L	01 NOV 2013
SUBEDAR	DVR SPL	DINESH KUMAR PANDEY	JC729398P	01 DEC 2013
SUBEDAR	DVR MT	PURAN SINGH	JC729399X	01 DEC 2013
SUBEDAR	DVR MT	SWARN SINGH	JC729461Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	SRBK GUTTE	JC728420H	01 JAN 2013
SUBEDAR	SH GD	KANAK CH BARO	JC728421L	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	M MUNI RAJ	JC728423W	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	VIJAY PAL	JC728424Y	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	GORAKH GIRI	JC728425F	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	UMA SHANKAR RAI	JC728500A	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	NATHU RAM KATIYAR	JC728501H	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	RAM ADHAR	JC728561X	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	RAM KRISHNA SINGH	JC728562A	01 FEB 2013
SUBEDAR	SH GD	RAMESH SINGH	JC728563H	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	DILIP KUMAR PAUL	JC728624P	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	MAHAVIR SINGH TAWAR	JC728668M	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	JAGANNATH BERA	JC728723K	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	JITENDER SINGH	JC728669P	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	RAM DEO	JC728670K	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJENDRA KUMAR	JC728724A	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	KALYAN SINGH	JC728725H	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	CHANDER HAS	JC728726L	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	GHAN SHYAM	JC728727M	01 MAR 2013
SUBEDAR	SH GD	NITAI CHANDRA MONDAL	JC728728W	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	UTTAM SHRIPAL BORGAVE	JC728729Y	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	TEJJBHAN PRASAD TIWARI	JC728782K	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	SAJJAN SINGH	JC728730N	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	BHOPAL SINGH	JC728783M	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	KUMARA SWAMY	JC728844Y	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	SURENDER SINGH	JC728784P	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	VASAVA CHMANBHAI	JC728845F	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	MUKTA MOHAN RAO	JC728883X	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	SHASHI KANT RAI	JC728977P	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	BIRENDRA KUMAR YADAV	JC728912F	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	JAIRAM PANDEY	JC728914M	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJ KUMAR SINGH	JC728915P	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	SATYA PAL	JC728916X	01 APR 2013
SUBEDAR	SH GD	RAM PRATAP KUSHWAHA	JC728917A	01 MAY 2013
SUBEDAR	SH GD	PREM SINGH	JC728949H	01 MAY 2013
SUBEDAR	SH GD	KANERI LAOO BHAGAWAN	JC728953L	01 JUN 2013
SUBEDAR	SH GD	ANANT KUMAR SINGH	JC728956Y	01 JUN 2013

SUBEDAR	SH GD	PATIL VASANT BHIMRAO	JC729016A	01 JUL 2013
SUBEDAR	SH GD	DEORE RAJENDRA VITHAL	JC729019A	01 JUL 2013
SUBEDAR	SH GD	RANVEER SINGH	JC729020H	01 AUG 2013
SUBEDAR	SH GD	DINESH KUMAR SHUKLA	JC729021L	01 AUG 2013
SUBEDAR	SH GD	NARAD UPADHYA	JC729022N	01 AUG 2013
SUBEDAR	SH GD	BHAGWAN SINGH	JC729023W	01 SEP 2013
SUBEDAR	SH GD	FAKIR SINGH	JC729024Y	01 SEP 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJBIR SINGH	JC729025F	01 SEP 2013
SUBEDAR	SH GD	SURJYA KANTA BORAH	JC729026K	01 SEP 2013
SUBEDAR	SH GD	RAM BABU SINGH	JC729027M	01 SEP 2013
SUBEDAR	SH GD	LA SAHAB YADAV	JC729029X	01 OCT 2013
SUBEDAR	SH GD	KRISHAN SINGH	JC729110K	01 OCT 2013
SUBEDAR	SH GD	KOLI LAXMAN BHAI KALA BHAI	JC729135W	01 OCT 2013
SUBEDAR	SH GD	ASHOK KUMAR CHAUSI	JC729082H	01 OCT 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJPUT RAM SINGH	JC729136Y	01 NOV 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJMAL SINGH	JC729137F	01 NOV 2013
SUBEDAR	SH GD	NEMI CHAND	JC729138K	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	RAMRAJ SINGH GURJAR	JC729177H	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	RAJ BANSI NARAIN MISHRA	JC729139M	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	RAMA KANT PAL	JC729140F	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	RINTU GOGOI	JC729248Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	SH GD	SAHEB BAHADURE	JC729111M	01 DEC 2013
SUBEDAR	SHT	SHIYA NAND GUPTA	JC729244H	01 FEB 2013
SUBEDAR	SHT	SUSHIL THAKUR	JC729245L	01 FEB 2013
SUBEDAR	SHT	RAJARAM BALE KUNDRI	JC729246N	01 APR 2013
SUBEDAR	SHT	DEVINDER KUMAR	JC729288A	01 APR 2013
SUBEDAR	SHT	MOHD KALIM KHAN	JC729400F	01 APR 2013
SUBEDAR	SHT	BALRAM SINGH	JC729289H	01 APR 2013
SUBEDAR	SHT	BHOLA RAI	JC729462F	01 APR 2013
SUBEDAR	SHT	RAM KRISHANA KURUP	JC729463K	01 MAY 2013
SUBEDAR	SHT	ARVIND KUMAR	JC729547X	01 JUL 2013
SUBEDAR	SHT	KESHAV PRASAD	JC729721Y	01 SEP 2013
SUBEDAR	SHT	AMRIT KUMAR DAS	JC729774X	01 OCT 2013
SUBEDAR	SHT	SAHEB SINGH	JC729775A	01 NOV 2013
SUBEDAR	SHT	MOHAN LAL	JC729776H	01 NOV 2013
SUBEDAR	SHT	PUNAM KUMAR	JC729814N	01 NOV 2013
SUBEDAR	SHT	NARENDRA SINGH	JC729850Y	01 DEC 2013
SUBEDAR	TLR `U'	BALDEV SINGH	JC727354Y	01 FEB 2013
SUBEDAR	TLR `U'	SATYA PAL	JC727416N	01 MAR 2013
SUBEDAR	ARTSN (WW)	AMARJIT YADAV	JC729551A	01 APR 2013
SUBEDAR	ARTSN (WW)	MOHD TASAUWAR HUSSAIN ANSARI	JC730015K	01 OCT 2013

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 225, dated 17th September 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

HAV TO BE NB SUB OPR & DVR (REC)

1.	Narendra Kumar Singh M	(No 14653127X now JC-768049F)	27 Feb 2013/01 Feb 2013*
2	Bhanwar Lal	(No 14653869X now JC-768150F)	01 Mar 2013
3	Chaudhary Raju Singh	(No 14653153Y now JC-768147F)	01 Mar 2013
4	Bharat Singh	(No 14653157P now JC-768149M)	04 Mar 2013/01 Mar 2013*
5	Dabhade Suresh Laxman	(No 14653149W now JC-768144N)	01 Mar 2013
6	Puran Singh	(No 14653114A now JC-768046N)	05 Mar 2013/01 Feb 2013*
7	Tambe Ramrao Bapurao	(No 14653144X now JC-768060A)	11 Feb 2013/01 Feb 2013*
8	Naval Kumar Mishra	(No 14653148N now JC-768143L)	01 Mar 2013
9	Ranavare Sanjay Bapu	(No 14653141K now JC-768057A)	02 Mar 2013/01 Feb 2013*
10	Ramjee	(No 14653860H now JC-768146Y)	12 Mar 2013/01 Mar 2013*
11	Yadav Shiv Gopal Devdatta	(No 14653859N now JC-768145W)	02 Mar 2013/01 Mar 2013*
12	Mahesh Chand	(No 14653156M now JC-768148K)	04 Mar 2013/01 Mar 2013*

HAV TO BE NB SUB DVR (MT)

13	Harihar Prasad	(No 14614166A now JC-768075H)	12 Feb 2013/01 Feb 2013*
14	Raja Ram	(No 14612756A now JC-768019K)	02 Mar 2013/01 Jan 2013*
15	Satyabir Singh	(No 14614229X now JC-768153P)	04 Mar 2013/01 Mar 2013*

HAV TO BE NB SUB CLK (SD)

16	Udaya Nath Dash	(No 14615565W now JC-768169A)	02 Mar 2013/01 Mar 2013*
17	Maheswar Puhan	(No 14615568K now JC-768170P)	01 Mar 2013
18	Ajit Kumar Swain	(No 14615570F now JC-768171X)	01 Mar 2013
19	Narendra Kumar Sharma	(No 14614991X now JC-768128W)	01 Mar 2013
20	Sanjeet Kumar Sah	(No 14615434L now JC-768172A)	01 Mar 2013
21	Dileswar Malana	(No 14615590P now JC-768124A)	01 Mar 2013
22	Mane Baban Narayan	(No 14615013H now JC-768126L)	01 Mar 2013
23	Ramesh Chand	(No 14615406Y now JC-768168X)	04 Mar 2013/01 Mar 2013*
24	Sanjeev Kumar	(No 14615231F now JC-767931H)	01 Feb 2013
25	Anil Kumar	(No 14615473K now JC-768174L)	11 Mar 2013/01 Mar 2013*
26	Hari Krishna Shukla	(No 14615044H now JC-768120K)	01 Mar 2013
27	Raj Kumar	(No 14615410F now JC-768173H)	12 Mar 2013/01 Mar 2013*

HAV TO BE NB SUB TECH SA

28	Matbar Singh Bist	(No 14609496P now JC-768155A)	01 Mar 2013
29	Sharmale Rambhau Bhima	(No 14608814F now JC-768159W)	04 Mar 2013/01 Mar 2013*
30	V Venkata Narsimha Rao	(No 14608997H now JC-768165K)	01 Mar 2013
31	Pabitra Hazarika	(No 14608969W now JC-768160L)	01 Mar 2013
32	Kalamuddin Laskar	(No 14607781P now JC-767424P)	07 Nov 2012/01 Nov 2012*
33	Balmukund Choubey	(No 14608630H now JC-767999K)	13 Feb 2013/01 Feb 2013*
34	Basanta Kumar Pani Grahi	(No 14609532P now JC-768158N)	01 Mar 2013

HAV TO BE NB SUB AVN TECH AF

35	Sarata Kumar Lenka	(No 14621454P now JC-767870W)	02 Jan 2013/01 Dec 2012*
36	P Santhana Kumar	(No 14634852P now JC-766687F)	20 Oct 2012/22 Oct 2011*

	HAV TO BE NB SUB AVN TECH ELECT	
37	Zahir Ahmad (No 14609029X now JC-768198P)	01 Apr 2013
	HAV TO BE NB SUB AUTO ELECT A VEH	
38	Anil Kumar VS (No 14639291P now JC-767386K)	01 Oct 2012
	HAV TO BE NB SUB TECH COMN	
1.	Gurminder Singh (No 14617517P now JC-768568K)	05 Jul 2013/01 Jul 2013*
	HAV TO BE NB SUB AUTO ELECT B VEH	
2	Rajput Narendra Sinh Paultsinh (No 14647025L now JC-768586M)	09 Jul 2013/22 Jun 2013*
	HAV TO BE NB SUB MASTER TECH B VEH	
3	Bhura Ram (No 14623733Y now JC-768635K)	01 Aug 2013
4	Ramesh Kumar (No 14626189N now JC-768599K)	23 Jul 2013/13 Jul 2013*
5	Ranjan Kumar Beura (No 14625782A now JC-768642A)	01 Aug 2013
6	Dulan Seikh (No 14622001W now JC-768633Y)	01 Aug 2013
7	M Sundaram (No 14625495W now JC-768638X)	01 Aug 2013
8	Manish Kumar Jha (No 14627461F now JC-768606P)	08 Aug 2013/01 Jul 2013*
9	Radhe Shyam (No 14611047Y now JC-768656A)	01 Aug 2013
10	Pawar Balbhim Trimbak (No 14630054K now JC-768658L)	01 Aug 2013
11	Bidhan CH Mallick (No 14622659W now JC-768665F)	01 Aug 2013
12	Ohal Nand Kumar Jayram (No 14624768F now JC-768596W)	10 Jul 2013/01 Jul 2013*
13	Kiran Kumar Tiwari (No 14619941W now JC-768655X)	01 Aug 2013
14	Ajay Pal (No 14631269P now JC-768629W)	01 Aug 2013
15	Uttam Prakash Singh (No 14626434L now JC-768600N)	05 Aug 2013/01 Jul 2013*
16	Karne Baburao Vishnu (No 14627887H now JC-768644L)	01 Aug 2013/01 Jul 2013*
17	Ramesh Vishwakarma (No 14625657W now JC-768640P)	01 Aug 2013
18	Karam Chand (No 14625072H now JC-768639A)	01 Aug 2013
19	M Senthil Kumar (No 14630924W now JC-768628N)	01 Aug 2013
20	Chavan Suresh Pandurang (No 14625136H now JC-768637P)	01 Aug 2013
21	Rajendran P (No 14630596N now JC-768645N)	01 Aug 2013
	HAV TO BE NB SUB MASTER TECH GUN	
22	Hareshwar Giri (No 14628796L now JC-768592A)	03 Aug 2013/01 Jul 2013*
	HAV TO BE NB SUB MASTER TECH ELECT	
23	Satender Singh (No 14631309L now JC-768615W)	01 Aug 2013
24	Devendra Singh Gusain (No 14631823P now JC-768614N)	01 Aug 2013
	HAV TO BE NB SUB TECH (SA)	
1.	Garasia Dinesh Kumar K (No 14607454K now JC-768652K)	01 Aug 2013
2	Ramadhar Yadav (No 14608127L now JC-768589A)	11 Jul 2013/01 Jul 2013*
3	Madan Mohan Upadhyay (No 14610039N now JC-768574X)	01 Jul 2013
4	Shyamal Shaw (No 14609413Y now JC-768571K)	01 Jul 2013
5	Ravinder Pal (No 14608984L now JC-768572M)	01 Jul 2013
6	Raju K (No 14609426W now JC-768573P)	10 Jul 2013/01 Jul 2013*
7	Ravindra Yadav (No 14609466X now JC-768613L)	01 Aug 2013
	HAV TO BE NB SUB OPR & DVR (REC)	
8	Om Prakash (No 14653204F now JC-768562H)	01 Jul 2013
9	Mahendra Singh Jakhar (No 14653206M now JC-768563L)	01 Jul 2013
10	Ram Kishor Saini (No 14653202W now JC-768525P)	19 Jun 2013/01 Jun 2013*

HAV TO BE NB SUB SKT

11	Aravindakshan K	(No 14614261M now JC-768129Y)	24 Jun 2013/25 May 2013*
12	Suresh Kumar R	(No 14614848L now JC-767724W)	01 Jun 2013/01 Mar 2013*
13	Suresh Kundargi	(No 14614880A now JC-768585K)	01 Jul 2013
14	Surendra Singh	(No 14614785N now JC-768584F)	03 Jul 2013/01 Jul 2013*

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH B VEH

15	S Saravanan	(No 14625934W now JC-768643H)	01 Aug 2013
16	Sanjeev Kumar	(No 14621782H now JC-768631N)	01 Aug 2013
17	Nikhil Chandra Das	(No 14623502H now JC-768593H)	29 Jul 2013/01 Jul 2013*
18	Teeku Ram Bhil	(No 14620924H now JC-768657H)	03 Aug 2013/01 Aug 2013*
19	Bulan Dey	(No 14625942P now JC-768602Y)	24 Jul 2013/01 Jul 2013*
20	Dayanand Kumar	(No 14624213A now JC-768636M)	01 Aug 2013
21	K Navaneeth Krishnan	(No 14630927K now JC-768659N)	01 Aug 2013
22	Dharmendra Kumar Verma	(No 14622531L now JC-768667M)	07 Aug 2013/01 Aug 2013*
23	Gopinathan C	(No 14625719L now JC-768641X)	01 Aug 2013
24	Abendra Nath Biswas	(No 14619495A now JC-768663W)	01 Aug 2013
25	Rakesh Kumar	(No 14625435F now JC-768598F)	11 Jul 2013/01 Jul 2013*

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH GUN

26	Koushik Saha	(No 14628825P now JC-768626H)	01 Aug 2013
----	--------------	---------------------------------	-------------

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH NETWORKING

27	Bhawani Dass	(No 14631259L now JC-768605M)	31 Jul 2013/01 Jul 2013*
----	--------------	---------------------------------	--------------------------

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH SA

28	Sunil Kumar	(No 14621042N now JC-768616Y)	01 Aug 2013
----	-------------	---------------------------------	-------------

HAV TO BE NB SUB ARMT (AFV/AD)

1.	Ravindra Prasad	(No 14612196Y now JC-768647Y)	01 Aug 2013
2	Gyan Prakash	(No 14615792W now JC-768648F)	01 Aug 2013

HAV TO BE NB SUB WELDER

3	Parmar Jagadish Kumar	(No 14616156P now JC-768646W)	01 Aug 2013
---	-----------------------	---------------------------------	-------------

HAV TO BE NB SUB AUTO TECH B VEH

4	Vinod Kumar Singh	(No 14607389P now JC-768566Y)	01 Jul 2013
5	Sudarsan Nayak	(No 14607415L now JC-768620K)	01 Aug 2013
6	Rajesh Kumar	(No 14607632F now JC-768621K)	01 Aug 2013
7	Ashok Kumar	(No 14607685A now JC-768622M)	01 Aug 2013
8	Ratul Gogoi	(No 14608028H now JC-768623P)	01 Aug 2013
9	Bijender Singh	(No 14608131N now JC-768624X)	01 Aug 2013

HAV TO BE NB SUB PTR & DECTR

10	Ram Naresh	(No 14613709P now JC-768649K)	06 Aug 2013/01 Aug 2013*
----	------------	---------------------------------	--------------------------

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH SA

11	Amar Singh	(No 14621057W now JC-768617F)	01 Aug 2013
----	------------	---------------------------------	-------------

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH B VEH

12	Joydeb Datta	(No 14624669Y now JC-768595N)	08 Aug 2013/01 Jul 2013*
13	Sree Kumar K	(No 14621879N now JC-768632W)	01 Aug 2013
14	Hind Raj	(No 14631144X now JC-768660H)	06 Aug 2013/01 Aug 2013*

15	Prabhakar Chaudhari	(No 14619239L now JC-768662N)	01 Aug 2013
16	Gurnam Singh	(No 14622710L now JC-768551W)	13 Aug 2013/22 Jun 2013*
17	Arshedali Mondal	(No 14626457M now JC-767677K)	19 Aug 2013/01 Nov 2012*
18	Prem Kumar	(No 14619727N now JC-768630L)	26 Aug 2013/01 Aug 2013*
19	Patil Vinod Dhansing	(No 14621105L now JC-768664Y)	20 Aug 2013/01 Aug 2013*
20	Sarwjeet Yadav	(No 14631168F now JC-768661L)	24 Aug 2013/01 Aug 2013*
21	R Tirumalazhagan	(No 14622447L now JC-768666K)	09 Aug 2013/01 Aug 2013*

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH GUN

22	Sinesh Kumar	(No 14628817W now JC-768627L)	01 Aug 2013
----	--------------	---------------------------------	-------------

HAV TO BE NB SUB MASTER TECH NETWORKING

23	Vijayan S	(No 14618878A now JC-768692L)	21 Aug 2013/03 Aug 2013*
24	M Asokan	(No 14627787X now JC-768690A)	24 Aug 2013/03 Aug 2013*

HAV TO BE NB SUB CLK (SD)

1.	Unni Krishnan CN	(No 14614454M now JC-767467K)	01 Oct 2012
2	Uday Bhan Singh	(No 14615029N now JC-767766H)	08 Jan 2013/01 Jan 2013*
3	Nagendra Singh	(No 14614980L now JC-767759M)	01 Jan 2013
4	Satish Kumar	(No 14614779A now JC-767770L)	01 Jan 2013
5	Govind Kumar	(No 14614959H now JC-767757F)	01 Jan 2013
6	M Moniruz Zaman	(No 14614859X now JC-767753L)	01 Jan 2013
7	Radhe Lal	(No 14615050W now JC-767773Y)	01 Jan 2013
8	More Namdev Vitthal	(No 14615017Y now JC-767760F)	01 Jan 2013
9	Ningthoujam Sunson Singh	(No 14614742Y now JC-767767L)	05 Jan 2013/ 01 Jan 2013*
10	Pandhare Annappa Yeshvant	(No 14615020Y now JC-767762M)	01 Jan 2013
11	Mahendra Kumar Swain	(No 14615078W now JC-767914H)	01 Jan 2013

HAV TO BE NB SUB AVN TECH (AF)

12	Shaik Moulali	(No. 14617871K now JC-767718H)	08 Dec 2012/01 Nov 2012*
----	---------------	--------------------------------	--------------------------

HAV TO BE NB SUB TECH (SA)

13	Sunil Dutt Kodali	(No 14608125A now JC-767736L)	04 Jan 2013/ 01 Dec 2012*
14	Bhuwan Chandra Pargain	(No. 14608213W now JC-767886F)	01 Jan 2013/01 Dec 2012*
15	Vinod Kumar Choubey	(No 14608568F now JC-767887K)	01 Jan 2013
16	Kasturba Nand	(No 14608240A now JC-767891M)	01 Jan 2013
17	Amarik Singh	(No 14608253X now JC-767892P)	01 Jan 2013
18	Ranbir Singh	(No 14608364P now JC-767895H)	01 Jan 2013
19	Girish Kumar NK	(No. 14608188H now JC-767730K)	14 Jan 2013/ 01 Dec 2012*
20	Jawahar Singh	(No.14607500N now JC-767944A)	09 Jan 2013/01 Jan 2013*

HAV TO BE NB SUB SKT

21	Liakat Ali Khan	(No. 14614757F now JC-767781X)	02 Jan 2013/01 Jan 2013*
22	Subash Chandra Nayak	(No. 14614776M now JC-767783H)	01 Jan 2013

HAV TO BE NB SUB OPR & DVR (REC)

23	Bhoop Singh	(No. 14605373L now JC-767848L)	01 Dec 2012
24	Ashis Bhowmick	(No.14603325M now JC-767877A)	08 Jan 2013/01 Jan 2013*
25	Gopal Sharma	(No. 14601955N now JC-767875P)	20 Dec 2012/03 Nov 2012*
26	Shivjee Rai	(No.14604792W now JC-767876X)	01 Jan 2013/ 01 Dec 2012*

HAV TO BE NB SUB DVR (MT)		
27	MD Ramjan Ansari	(No. 14602144P now JC-767897N) 28 Dec 2012/08 Dec 2012*
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH (SA)		
1	Vinod Chand	(No 14613747L now JC-767639N) 01 Dec 2012
2	Dinesh Kumar Tripathi	(No 14613111K now JC-767636A) 01 Dec 2012
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH ELECT		
3	Apurba Ranjan Dutta	(No 14622736A now JC-767872F) 12 Dec 2012/01 Dec 2012*
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH GCE		
4	Bhawani Datt	(No 14628571H now JC-766705Y) 17 Dec 2012/01 Dec 2012*
HMT TO BE NB SUB AUTO TECH ENGR EQPT		
5	Pradeep Kumar	(No 14631439N now JC-767807F) 03 Dec 2012/01 Dec 2012*
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH 'C' VEH		
6	Santosh Kumar Pandey	(No 14631419A now JC-767805W) 13 Dec 2012/01 Dec 2012*
7	Rajesh Kumar Verma	(No 14631423H now JC-767695M) 01 Dec 2012
8	Anand Singh Negi	(No 14631460W now JC-767698A) 13 Dec 2012/01 Dec 2012*
9	M Boomi	(No 14627308L now JC-767802H) 01 Dec 2012
10	Jai Singh Mahla	(No 14626486F now JC-767678M) 12 Dec 2012/01 Dec 2012*
11	S Janardhan Reddy	(No 14631357L now JC-767693F) 01 Dec 2012
12	Vikash Kumar	(No 14631455L now JC-767696P) 10 Dec 2012/01 Dec 2012*
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH RADAR		
13	Saklani Kuldeep Singh AS	(No 14628658K now JC-767644Y) 12 Dec 2012/01 Nov 2012*
14	Yatinder Singh Rawat	(No 14626789W now JC-767643W) 01 Nov 2012
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH NETWORKING		
15	Sawant Suhas Ramchandra	(No 14621137N now JC-766826A) 17 Dec 2012/01 Nov 2012*
16	Moti Singh Chouhan	(No 14622005M now JC-767650M) 18 Dec 2012/01 Nov 2012*
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH GUN		
17	T Chennakesavulu	(No 14623196Y now JC-767665P) 01 Dec 2012
18	Prasenjit Khan	(No 14629694F now JC-767646K) 01 Nov 2012
19	Abdul Jaleel M Alikoya	(No 14622735X now JC-767663K) 01 Nov 2012
HMT TO BE NB SUB TECH (SA)		
20	Ranjeet Singh Poonia	(No 14615652K now JC-767641L) 01 Dec 2012
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH B VEH		
21	Nagendra Pandey	(No 14624193X now JC-766542W) 19 Dec 2012/01 Nov 2012*
22	Hukma Ram Choudhary	(No 14631850Y now JC-767803L) 16 Dec 2012/01 Dec 2012*
23	Malleswara Rao Akula	(No 14622831M now JC-766053L) 10 Dec 2012/01 Oct 2012*
24	Manoj Kumar Giri	(No 14622781M now JC-765995P) 19 Dec 2012/01 Mar 2011*
25	Manoj Kumar	(No 14630339W now JC-767690N) 01 Dec 2012
HMT TO BE NB SUB MASTER TECH A VEH		
26	Subrat Kumar Mahapatra	(No 14621449K now JC-766356A) 19 Dec 2012/01 Sep 2011*

* Gtd ante date seniority

RAJEEV JAUHARY
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 226, dated 17th September 2014—The President is pleased to make the following promotion.

REGULAR ARMY

INFANTRY

JAK LI

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub (Clk) Yudhbir Singh	(JC-592963M)	29 Jul 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Jun 2013)		
Sub Abdul Kabir	(JC-593020A)	30 Jul 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jun 2013)		
Sub Yash Pal	(JC-592920X)	01 Aug 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2013)		
Sub (Clk) Pratap Singh Kapkoti	(JC-592986N)	01 Aug 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Aug 2013)		
Sub Sardari Lal Sharma	(JC-592989F)	01 Aug 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Aug 2013)		
Sub Harbans Lal	(JC-592791H)	01 Jan 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2013)		
Sub Om Parkash	(JC-592923L)	01 Jan 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2013)		
Sub Sagar Singh	(JC-593182L)	01 Jan 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2013)		
Sub Abdul Majid	(JC-593281N)	01 Jan 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2013).		
Sub Deputy Raj	(JC-593372A)	05 Jan 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Jan 2013).		
Sub Abdul Qayoom	(JC-592893Y)	02 Mar 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Mar 2013).		
1. JC-592895K	Sub Mohan Lal	01 Apr 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2013).		
2. JC-593025Y	Sub Abdul Majid Magrey	04 Apr 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Apr 2013).		
3. JC-593042Y	Sub Vir Singh	03 May 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2013).		
4. JC-593065A	Sub Gian Chand	03 May 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2013).		
Sub Vijay Kumar	(JC-593032P)	03 May 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 May 2013).		
1. JC-593045M	Sub Kamal Singh	02 Oct 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Oct 2013).		
2. JC-593468A	Sub Ashok Kumar	01 Oct 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Oct 2013).		
3. JC-174043Y	Sub Bharat Bhushan Sharma	21 May 2013
(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 May 2013).		

4. JC-174044F Sub MD Mehbubar Rehman 01 Jun 2013

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Jun 2013).

5. JC-166593M Sub Saryu Prasad Shukul 01 Jun 2013

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Jun 2013).

TO BE NAIB SUBEDAR

Ser No	Particulars	Date of Promotion
1.	Sol Tech Sateesh Pandey (15701022K Now JC-594113F) (Gtd seniority in the rank of Nb sub wef 04 Feb 2012).	04 Feb 2012
2.	Rect (RT) Mandip Singh (Now JC-594201X) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2012)	24 Nov 2012
3.	Sol GD Mukarram Ali (2998525A Now JC-594238Y) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2012)	24 Nov 2012
4.	Sol GD Arvinder Singh (15338694A Now JC-594239F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Nov 2012)	24 Nov 2012
5.	Hav Som Nath (9089582L Now JC-594355K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013)	12 Aug 2013
6.	Hav Ghani Sham (9094437X Now JC-594356M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013)	16 Sep 2013
7.	Hav Jagar Mal (9094438A Now JC-594357L) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Sep 2013)	05 Oct 2013
8.	Hav Mohd Basharat (9096051W Now JC-594358X) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013)	03 Oct 2013
9.	Hav Sagar Singh (9096628L Now JC-594359A) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2012)	01 Oct 2013
10.	Hav (Clk) Ashok Kumar (9096931M Now JC-594360P) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013)	01 Oct 2013
11.	Hav (Clk) Santosh Kumar Rai (9096941W Now JC-594361X) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013)	01 Oct 2013
12.	Hav (Clk) Suresh Kumar Guleria (9096942Y Now JC-594362A) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013)	05 Oct 2013
13.	Hav Hira Lal (9089911W Now JC-594363H) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013)	16 Oct 2013
14.	Hav (Clk) Sunil Kumar (9096945M Now JC-594364L) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2013)	18 Nov 2013

1	Hav Mohd Saleem Katoch (9096601N Now JC-594375X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Oct 2013)	18 Dec 2013
2	Hav Parveen Singh Chib (9089912Y Now JC-594376A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	02 Dec 2013
3	Hav AB Majid Kataria (9096067F Now JC-594377H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	02 Dec 2013
4	Hav Barket Ali Magray (9096609A Now JC-594378L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 2013)	18 Dec 2013
5	Hav Abdul Wahid Dar (9096642X Now JC-594379N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	18 Dec 2013

1.	9096491K Hav Vikram Singh (Now JC-594365N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2013)	23 Nov 2013
2.	9089189H Hav Dwarka Nath (Now JC-594366W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Nov 2013)	11 Nov 2013

3.	9089208H Hav Balbir Chander (Now JC-594367Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2013)	11 Nov 2013
4.	9089906L Hav Mohinder Kumar (Now JC-594368F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Aug 2013)	13 Sep 2013
5.	9089683Y Hav Nasar Hussain (Now JC-594369K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Nov 2013)	26 Nov 2013
6.	9094353K Hav Gopal Dass (Now JC-594370Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Nov 2013)	26 Nov 2013
7.	9094237F Hav Darshan Lal (Now JC-594371F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	01 Dec 2013
8.	9094621H Hav Raj Singh (Now JC-594372K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	02 Dec 2013
9.	9094442H Hav Vijay Singh (Now JC-594373M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	02 Dec 2013
10.	9094439H Hav Raj Kumar (Now JC-594374P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013)	02 Dec 2013

1	Hav Ravi Dutt (9094431W Now JC-594352W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2013)	23 Aug 2013
2	Hav (Clk) Balbir Singh (9096845F Now JC-594353Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013)	28 Aug 2013
3	Hav (Clk) Narinder Kumar (9096850M Now JC-594354F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013)	30 Aug 2013

1	Hav Fazal Hussain, SM (9094166L Now JC-594343P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Mar 2013)	13 Jun 2013
2	Hav Nissar Ahmad Bhat 9094733H Now JC-594344X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	19 May 2013
3	Hav Uttam Singh (9096451H Now JC-594345A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	12 May 2013
4	Hav Karamit Hussain (9096213W Now JC-594346H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	11 Jun 2013
5	Hav Makhtar Ahmed (9089852P Now JC-594347L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013)	12 Apr 2013
6	Hav Mukhter Hussain (9096341N Now JC-594348N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	08 Jul 2013
7	Hav Surinder Singh Charak (9094422P Now JC-594349W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Apr 2013)	13 Jul 2013
8	Hav Chhatter Singh (9095573A Now JC-594350L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013)	12 Jun 2013
9	Hav (Clk) Naveen Shahi (9096910W Now JC-594351N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2013)	01 Aug 2013

1	Hav Lal Hussain (9095656L Now JC-594336Y) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	20 Feb 2013
2	Hav Ravinder Singh (9096715Y Now JC-594337F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2013)	10 May 2013
3	Hav Mohd Shafiq (9095496W Now JC-594338K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013)	01 May 2013
4	Hav Kulbeer Singh (9096676L Now JC-594339M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	22 May 2013

5	Hav Randhir Singh (9095564Y Now JC-594340F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	07 Jun 2013
6	Hav Stanzin Samtan (9095777M Now JC-594341K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	23 May 2013
7	Hav Mohd Aslam (9094909H Now JC-594342M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Apr 2013)	16 May 2013

1	Hav Abdul Ghani (9089996K Now JC-594293P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	08 Mar 2013
2	Hav Shah Baz (9094286K Now JC-594294X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	08 Mar 2013
3	Hav Kuldeep Singh (9089729W Now JC-594295A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	02 Mar 2013
4	Hav Rakesh Kant (9089389X Now JC-594296H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	19 Mar 2013
5	Hav Mohd Iqbal Wani (9088484Y Now JC-594297L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	19 Mar 2013
6	Hav Kabir Hussain (9089675A Now JC-594298N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	19 Mar 2013
7	Hav Mohd Shabir (9089691X Now JC-594299W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	20 Mar 2013
8	Hav Chaman Lal (9089733Y Now JC-594300A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	22 Mar 2013
9	Hav Ram Lal (9095968F Now JC-594301H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	22 Mar 2013
10	Hav Mohd Muddasser Shafiq (9096090P Now JC-594302L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	29 Mar 2013
11	Hav Araf Hussain Shah (9096106P Now JC-594303N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	22 Mar 2013
12	Hav Mohd Sagheer (9096163W Now JC-594304W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	22 Mar 2013
13	Hav Altaf Hussain (9096295K Now JC-594305Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	22 Mar 2013
14	Hav Tariq Ahmed Shah (9096298X Now JC-594306F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2012)	29 Mar 2013
15	Hav Kafayait Ullah (9096335A Now JC-594307K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	22 Mar 2013
16	Hav Mohd Iqbal (9088728F Now JC-594308M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	12 Feb 2013
17	Hav Rajesh Kumar (9095979N Now JC-594309P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	18 Mar 2013

18	Hav Sudesh Kumar (9095593N Now JC-594310K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	28 Mar 2013
19	Hav Amarjeet Singh (9095603M Now JC-594311M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	26 Mar 2013
20	Hav Zaffer Iqbal (9095808F Now JC-594312P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	26 Mar 2013
21	Hav Sultan Singh (9095835L Now JC-594313X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	26 Mar 2013
22	Hav Ram Paul (9094922M Now JC-594314A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	02 Apr 2013

23	Hav Puran Singh (9089382P Now JC-594315H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	19 Mar 2013
24	Hav Khadam Hussain (9089678N Now JC-594316L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	20 Mar 2013
25	Hav Farid Hussain (9089838H Now JC-594317N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	18 Mar 2013
26	Hav Surjeet Singh (9096692H Now JC-594318W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013)	01 Apr 2013
27	Hav Riaz Khan (9096979A Now JC-594319Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013)	01 Apr 2013
28	Hav Daljit Singh (9094668N Now JC-594320N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	29 Mar 2013
29	Hav Mohd Aslam (9096280F Now JC-594321W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	10 Apr 2013
30	Hav Jagdish Raj (9099248X Now JC-594322Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	03 May 2013
31	Hav Pawan Kumar (9095790W Now JC-594323F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	09 Apr 2013
32	Hav Vijay Kumar (9095992X Now JC-594324K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	06 May 2013
33	Hav Kuldeep Singh (9094821Y Now JC-594325M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
34	Hav Kuldeep Raj (9095456P Now JC-594326P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
35	Hav Kanwarjit Singh (9095514N Now JC-594327X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
36	Hav Vijay Kumar (9094791M Now JC-594328A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
37	Hav Zakir Hussain (9095884N Now JC-594329H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
38	Hav Sham Lal (9095544L Now JC-594330X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
39	Hav Satvir Singh (9095840W Now JC-594331A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 2013)	03 May 2013
40	Hav Ranjeet Singh (9096510K Now JC-594332H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	28 Mar 2013
41	Hav Tilak Raj (9089188A Now JC-594333L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013)	03 Apr 2013
42	Hav Mohd Fazal (9094925A Now JC-594334N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2013)	02 Apr 2013
43	Hav Zahoor Ahmad Shah (9096035Y Now JC-594335W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2013)	03 May 2013

1	Hav Mohd Yaqoob Khan (9094550M Now JC-594270N) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	12 Dec 2012
2	Hav Mohd Sadiq (9089661A Now JC-594271W) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Nov 2012)	12 Dec 2012
3	Hav Kuldeep Kumar (9089154M Now JC-594272Y) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	12 Feb 2013
4	Hav Tazart Hussain (9089991Y Now JC-594273F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	22 Feb 2013

5	Hav Mohd Ameen (9094186Y Now JC-594274K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	04 Mar 2013
6	Hav Tej Ram (9094425H Now JC-594275M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	18 Feb 2013
7	Hav Maqsood Ahmed (9096068K Now JC-594276P) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Oct 2012)	03 Jan 2013
8	Hav Ab Majid Khan (9095414H Now JC-594277X) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	13 Feb 2013
9	Hav Puran Singh (9089793N Now JC-594278A) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	04 Feb 2013
10	Hav Tarsem Singh (9094630K Now JC-594279H) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	04 Feb 2013
11	Hav Manhuri Lal (9096496H Now JC-594280X) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	06 Mar 2013
12	Hav Girdhari Lal (9096436N Now JC-594281A) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	13 Feb 2013
13	Hav(Clk) Jitendra Kumar (9096824L Now JC-594282H) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	15 Feb 2013
14	Hav Muhammad Aslam Khan (9094537H Now JC-594283L) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	06 Mar 2013
15	Hav Raja Ram (9094772F Now JC-594284N) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	06 Mar 2013
16	Hav Bader Din (9089962K Now JC-594285W) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	06 Mar 2013
17	Hav Kuldeep Singh (9089346K Now JC-594286Y) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Feb 2013)	25 Feb 2013
18	Hav Subhash Chander (9096456F Now JC-594287F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Feb 2013)	08 Mar 2013
19	Hav Vijay Kumar (9089375Y Now JC-594288K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Feb 2013)	23 Feb 2013
20	Hav Balwan Singh (9089161H Now JC-594289M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	01 Mar 2013
21	Hav Baljeet Singh (9096619K Now JC-594290F) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2013)	01 Mar 2013
22	Hav Harvinder Singh (9095716P Now JC-594291K) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	06 Mar 2013
23	Hav Surinder Singh (9095723L Now JC-594292M) (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	10 Mar 2013

1	Hav Veer Singh (9096267X Now JC-594240W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	23 Nov 2012
2	Hav Tarsem Paul (9094792P Now JC-594241Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2012)	18 Jan 2013
3	Hav Mohinder Paul Sharma (9094421M Now JC-594242F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	15 Jan 2013
4	Hav Baldev Raj (9094676M Now JC-594243K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	10 Jan 2013
5	Hav Muzeffer Hussain (9089466N Now JC-594244M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	01 Jan 2013
6	Hav Umar Farooq (9096269H Now JC-594245P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	01 Jan 2013

7	Hav Arjun Kumar (9089376F Now JC-594246X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2012)	11 Jan 2013
8	Hav Kulbir Singh (9089761L Now JC-594247A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Dec 2012)	12 Jan 2013
9	Hav (Clk) Karar Singh (9095910K Now JC-594248H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
10	Hav Kewal Singh (9094364W Now JC-594249L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	22 Jan 2013
11	Hav Omkar Singh (9094419P Now JC-594250A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	22 Jan 2013
12	Hav Mohd Naseem (9094578M Now JC-594251H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Sep 2012)	23 Oct 2012
13	Hav Lal Mohd Khan (9094580K Now JC-594252L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Nov 2012)	01 Feb 2013
14	Hav Vijay Kumar (9096438Y Now JC-594253N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Dec 2012)	26 Jan 2013
15	Hav Mohd Syeed (9096511M Now JC-594254W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 2012)	26 Jan 2013
16	Hav Mohd Akram (9096279M Now JC-594255Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2013)	01 Feb 2013
17	Hav Nazir Ahmad Bhat (9089345F Now JC-594256F) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
18	Hav Gh Nabi Wani (9089602N Now JC-594257K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
19	Hav Subash Chander (9089824H Now JC-594258M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
20	Hav Ganesh Dass (9089886H Now JC-594259P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
21	Hav Mohan Lal (9089887L Now JC-594260K) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
22	Hav Darshan Singh (9089897P Now JC-594261M) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
23	Hav Aftab Ahmed (9096100N Now JC-594262P) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	01 Feb 2013
24	Hav Pawan Kumar (9096473F Now JC-594263X) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	02 Feb 2013
25	Hav Azad Ahmed (9089984H Now JC-594264A) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	01 Jan 2013
26	Hav Mohd Rafiq (9089987W Now JC-594265H) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2012)	10 Feb 2013
27	Hav Bashir Ahmed (9089580A Now JC-594266L) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	11 Feb 2013
28	Hav Joginder Paul (9094913L Now JC-594267N) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	13 Feb 2013
29	Hav Gh Nabi Sheikh (9094631M Now JC-594268W) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2013)	13 Feb 2013
30	Hav (Musn) Raghuwir Roy (9095455M Now JC-594269Y) Nb Sub (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2012)	26 Feb 2013

JAK RIF

To be Substantive Nb Sub (GD)

Hav Joginder Pal	(13755325A now JC-581719M)	12 th Nov 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Oct 2013.		
Hav Hem Raj	(13753921N now JC-581720F)	01 st Oct 2013
Hav Dile Ram	(13754709H now JC-581721K)	13 th Nov 2013*
Hav Jai Pall	(13755997M now JC-581722M)	30 th Nov 2013*
Hav Yog Raj	(13754480P now JC-581723P)	18 th Nov 2013*
Hav Sat Pal	(13754526M now JC-581724X)	14 th Nov 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2013.		
Hav Kehar Singh	(13754678N now JC-581725A)	30 th Nov 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10 Nov 2013.		
Hav Shamsher Singh	(13754616N now JC-581726H)	02 nd Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2013.		
Hav Raj Kumar	(13754685K now JC-581727L)	04 th Dec 2013*
Hav Kashmir Singh	(13754954L now JC-581728N)	04 th Dec 2013*
Hav Rakesh Kumar	(13754955N now JC-581729W)	06 th Dec 2013*
Hav Inder Singh	(13753926M now JC-581730L)	11 th Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 st Dec 2013.		
Hav Anil Kumar	(13756340F now JC-581731N)	03 rd Sep 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2013.		
Hav Parmod Singh	(13755991L now JC-581732W)	03 rd Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2013.		
Hav Jagdip Singh	(13753168A now JC-581733Y)	18 th Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 31 Oct 2013.		
Hav Updesh Kumar	(13753200K now JC-581734F)	18 th Dec 2013*
Hav Udham Singh	(13753314P now JC-581735K)	27 th Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2013.		
Hav Roshan Lal	(13753923Y now JC-581736M)	22 nd Nov 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2013.		
Hav Desh Raj	(13754496A now JC-581737P)	20 th Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24 th Nov 2013.		
Hav Balkar Singh	(13754068F now JC-581738X)	26 th Dec 2013*
Hav Romesh Chander	(13754031A now JC-581739A)	16 th Dec 2013*
Hav Charan Datt	(13754840A now JC-581740P)	16 th Dec 2013*
Hav Devinder Singh Kaushal	(13754553W now JC-581741X)	02 nd Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2013.		
Hav Deep Kumar	(13754328F now JC-581742A)	01 st Jan 2014
Hav Hemant Kumar	(13754504N now JC-581743H)	01 st Jan 2014
Hav Shashi Paul	(13754857N now JC-581744L)	01 st Jan 2014
Hav Lakhvinder Singh	(13754404H now JC-581745N)	01 st Jan 2014
Hav Daljeet Singh	(13754854A now JC-581746W)	01 st Jan 2014
Hav Vinodh Kumar	(13754896M now JC-581747Y)	01 st Jan 2014
Hav Sukhdev Singh	(13753556X now JC-581748F)	01 st Jan 2014
Hav Manmohan Kumar	(13754969N now JC-581749K)	01 st Jan 2014
Hav Sham Singh, SM	(13756547F now JC-581750Y)	01 st Jan 2014

Hav Yash Paul	(13754661A now JC-581751F)	01 st Jan 2014
Hav Prem Singh	(13754829F now JC-581752K)	01 st Jan 2014
Hav Nand Lal	(13754960Y now JC-581753M)	01 st Jan 2014
Hav Ravinder Kumar	(13754634W now JC-581754P)	01 st Jan 2014
Hav Dilip Rai	(13755564P now JC-581755X)	01 st Jan 2014
Hav Nageen Chand	(13753691L now JC-581756A)	20 th Jan 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 Jan 2014.		
Hav Roshan Lal	(13754684F now JC-581758L)	14 th Dec 2013*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2013.		
Hav Nirmal Singh Manhas	(13754638M now JC-581759N)	07 th Jan 2014*
Hav Vijay Kumar	(13754845Y now JC-581760H)	08 th Jan 2014*
Hav Ranbir Singh Chib	(13756318W now JC-581761L)	23 rd Jan 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2014.		
Hav Gurbhaji	(13754776N now JC-581762N)	21 st Jan 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2014.		
Hav Bhim Bahadur Thapa	(13754421H now JC-581763W)	10 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 04 Jan 2014.		
Hav Krishan Kumar	(13753270H now JC-581764Y)	10 th Feb 2014*
Hav Sukhwinder Singh	(13754070Y now JC-581765F)	13 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Darshan Singh	(13754172P now JC-581766K)	01 st Feb 2014
Hav Virender Kumar	(13754058X now JC-581767M)	10 th Feb 2014*
Hav Kamal Kumar	(13754694L now JC-581768P)	14 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Puran Chand Sharma	(13754520L now JC-581769X)	01 st Feb 2014
Hav Rajendra Singh	(13618818P now JC-581770M)	17 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Rakesh Kumar	(13753561H now JC-581771P)	01 st Feb 2014
Hav Onkar Singh	(13754874N now JC-581772X)	01 st Feb 2014
Hav Prakam Chand	(13754238A now JC-581773A)	10 th Feb 2014*
Hav Balkar Singh	(13754241A now JC-581774H)	10 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Sohan Lal	(13753562L now JC-581775L)	01 st Feb 2014
Hav Bishan Singh	(13754267P now JC-581776M)	10 th Feb 2014*
Hav Sleem Hussain	(13754720F now JC-581777W)	10 th Feb 2014*
Hav Rachhpal Singh	(13756415N now JC-581778Y)	03 rd Feb 2014*
Hav Rajender Singh Hudden	(13756417Y now JC-581779F)	13 th Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Arvind Kumar	(13754972N now JC-581780W)	01 st Feb 2014
Hav Amar Singh	(13754992F now JC-581781Y)	01 st Feb 2014
Hav Secuinder Singh	(13754793N now JC-581782F)	01 st Feb 2014
Hav Vijay Singh	(13754833K now JC-581783K)	01 st Feb 2014
Hav Puran Kumar Gurung	(13755791P now JC-581784M)	01 st Feb 2014
Hav Ravinder Kumar	(13753741L now JC-581785P)	19 th Feb 2014*
Hav Ram Bahadur Khadka	(13755292A now JC-581786X)	03 rd Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		

Hav Mohan Thapa	(13753648K now JC-581787A)	11 th Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 15 Feb 2014.		
Hav Satdev Singh	(13753762F now JC-581788H)	03 rd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.		
Hav Hardial Singh	(13754918A now JC-581789L)	01 st Mar 2014
Hav Dehru Ram	(13755383K now JC-581790A)	01 st Mar 2014
Hav Gopal Dass	(13755054N now JC-581791H)	24 th Mar 2014*
Hav Omkar Singh	(13754815F now JC-581792L)	03 rd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.		
Hav Parvez Ahmed	(13755472H now JC-581793N)	01 st Mar 2014
Hav Bakhshish Singh	(13753722A now JC-581794W)	01 st Mar 2014
Hav Jagtar Singh	(13754014A now JC-581795Y)	01 st Mar 2014
Hav Kewal Krishan	(13754677L now JC-581796F)	01 st Mar 2014
Hav Raj Kumar	(13754345F now JC-581797K)	01 st Mar 2014
Hav Daleep Singh	(13754919H now JC-581798M)	01 st Mar 2014
Hav Babu Ram	(13754427K now JC-581799P)	01 st Mar 2014
Hav Mohd Sadiq, SC	(13754936H now JC-581800Y)	01 st Mar 2014
Hav Ramesh Lal	(13754547H now JC-581801F)	01 st Mar 2014
Hav Govardhan Rai	(13755912L now JC-581802K)	01 st Mar 2014
Hav Satish Kmar	(13754977M now JC-581803M)	14 th Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 02 Mar 2014.		
Hav Jagat Pal Pathak	(13755187K now JC-581804P)	15 th Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 06 Mar 2014.		
Hav Muktar Ahmed	(13756286Y now JC-581815F)	03 rd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 09 Dec 2013.		
Hav Jarnail Singh	(13756900H now JC-581816K)	03 rd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2014.		
Hav Ram Pratap	(13756416W now JC-581817M)	10 th Apr 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Ganesh Rana	(13753987K now JC-581818P)	02 nd Feb 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.		
Hav Sanjok Kumar Rai	(13756014Y now JC-581819X)	01 st Feb 2014
Hav Kuldeep Singh	(13754539K now JC-581820M)	22 nd Mar 2014*
Hav Jagjit Singh	(13755590W now JC-581821P)	22 nd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.		
Hav Rajiv Kumar Rana	(13755457N now JC-581822X)	01 st Mar 2014
Hav Anil Kumar	(13755313L now JC-581823A)	01 st Mar 2014
Hav Anil Kumar	(13754800Y now JC-581824H)	31 st Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.		
Hav Kuldeep Kumar	(13756532Y now JC-581825L)	22 nd Mar 2014*
Hav Surjeet Singh	(13755954X now JC-581826N)	22 nd Mar 2014*
Hav Manmohan Singh	(4072514M now JC-581827W)	22 nd Mar 2014*
Hav Harish Kumar	(4072667W now JC-581828Y)	22 nd Mar 2014*
Hav Ashok Kmar	(4072229N now JC-581829F)	22 nd Mar 2014*
Hav Pawan Kumar	(13754722M now JC-581830W)	08 th Mar 2014*
Hav Nasib Singh	(4072765W now JC-581831Y)	22 nd Mar 2014*
* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.		

Hav Mohinder Singh	(13754878K now JC-581832F)	01 st Mar 2014
Hav Wazir Singh	(13754329K now JC-581833K)	01 st Apr 2014
Hav Birbal Ram	(4361296X now JC-581834M)	01 st Apr 2014
Hav Vijay Singh	(13754395M now JC-581835P)	01 st Apr 2014
Hav Dilar Bahadur Singh	(13754407W now JC-581836X)	01 st Apr 2014
Hav Rattan Lal Sharma	(13754879M now JC-581837A)	01 st Apr 2014
Hav Surinder Singh Saini	(13754789L now JC-581838H)	01 st Jan 2014
Hav Jagdish Singh	(13753763K now JC-581839L)	19 th Apr 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.

Hav Gulshan Singh	(13754546A now JC-581840A)	25 th Apr 2014*
-------------------	----------------------------	----------------------------

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 08 Mar 2014.

Hav Dhani Ram	(13754154M now JC-581841H)	19 th Apr 2014*
Hav Mohinder Singh	(13755080P now JC-581842L)	27 th Apr 2014*
Hav Surjit Singh	(13755086W now JC-581843N)	27 th Apr 2014*
Hav Rajinder Singh	(13754410W now JC-581844W)	28 th Apr 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014

Hav Rajender Singh Rana	(13755532M now JC-581845Y)	01 st Apr 2014
Hav Kushal Singh	(13757787L now JC-581846F)	01 st Apr 2014
Hav Sham Lal	(13754796F now JC-581847K)	01 st Apr 2014
Hav Shafiq Ahmed	(2684031M now JC-581848M)	20 th May 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2014

Hav Ram Paul Sharma	(13755656F now JC-581849P)	01 st May 2014
Hav Tarun Paul	(13755682H now JC-581850K)	01 st May 2014
Hav Labh Singh	(13754534L now JC-581851M)	20 th May 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2014

Hav Bhup Singh	(13755738K now JC-581852P)	01 st May 2014
Hav Gopal Dass	(13756000Y now JC-581853X)	01 st May 2014
Hav Krishan Kumar	(13754459M now JC-581854A)	01 st May 2014
Hav Beli Raj Thakur	(13754536W now JC-581855H)	06 th May 2014*
Hav Mohinder Singh	(13755093M now JC-581856L)	05 th May 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2014

Hav Kuldip Singh	(13756584P now JC-581857N)	01 st May 2014
Hav Ajay Subba, SM	(13755792X now JC-581858W)	05 th May 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2014

Hav Nim Dorjee Tamang	(13755915Y now JC-581859Y)	05 th May 2014*
-----------------------	----------------------------	----------------------------

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2014

To be Substantive Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Raman Chand	(13752216H now JC-581663H)	01 st Aug 2013
Hav clk (SD) Umesh Kumar	(3991024N now JC-581664N)	01 st Aug 2013
Hav Clk (SD) Chintala Tirupati Rao	(13754883P now JC-581665W)	01 st Aug 2013
Hav Clk (SD) Satya Prakash	(13754567W now JC-581666Y)	01 st Aug 2013
Hav Clk (SD) Lekh Pal	(13754317N now JC-581716Y)	01 st Dec 2013
Hav Clk (SD) Ikrar Mohammad	(13754566N now JC-581717F)	01 st Dec 2013
Hav Clk (SD) Nirmal Singh	(13755446F now JC-581718K)	02 nd Dec 2013*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01st Dec 2013.

Hav Clk (SD) Kuldeep Singh (13755805K now JC-581757H) 03rd Feb 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2014.

Hav Clk (SD) Mahandra Kumar PM (13755882YN now JC-581805X) 06th Mar 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.

Hav Clk (SD) Surendra Lal Karn (13756090L now JC-581806A) 01st Mar 2014

Hav Clk (SD) Ashok Kumar Ligree (13756174Y now JC-581809N) 23rd Mar 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2014.

Hav Clk (SD) NG Nongdamba Singha (13756015F now JC-581807N) 01st Apr 2014

Hav Clk (SD) Raj Kumar (13755226X now JC-581808L) 01st Apr 2014

Hav Clk (SD) Sushen Das (13755084L now JC-581810H) 01st Apr 2014

Hav Clk (SD) Gyanesh Kumar Singh (3991143K now JC-581811L) 10th Apr 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014.

Hav Clk (SD) Kuldeep Kumar (13755730X now JC-581812N) 01st Apr 2014

Hav Clk (SD) Tapas Kumar Biswas (3991097A now JC-581813W) 07th Apr 2014*

* Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2014.

Hav Clk (SD) M Ananth (13756195P now JC-581814Y) 01st Apr 2014

VN RAVEENDRAN
Under Secretary

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 227, dated 18th September 2014—The President is pleased to make the following promotion :-

Sh. Ambica Prasad Ghosh to be Chief Admin Officer, Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01 January 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB-3) and Grade Pay Rs 7600/-.

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the under mentioned Officers for the Post and Date shown against their names:-

S. No.	Name	Post of promotion	Estt/Lab	Date of joining	Pay band and grade pay
01.	Sh. D D Digwal	AO	JCB, Delhi	05.05.14	PB-2, GP-4600
02.	Sh. S C Gupta	AO	JCB, Delhi	05.05.14	PB-2, GP-4600
03	Sh. S N Mashalkar	AO	ARDE, Pune	13.06.14	PB-2, GP-4600

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)